

પન્દરહવી સદી કી અઝીમ ઈસ્મી વ રૂઢાની શખ્સિયત
 શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી હઝરત અસ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ
 મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ર-ઝવી رحمۃ اللہ علیہ કી હયાતે મુબારકા કે રોશન અવરાક



Sunnate Nikah (Gujarati)

તઝકિરએ અમીરે અહલે સુન્નત

કિસ્ત-૩

સુન્નતે નિકાહ

- શાદી સુન્નત હૈ
- નમાઝો કી બા જમાઅત અદાએગી
- બિન્તે અત્તાર કા જહેઝ
- નિકાહ કી નિયતે
- શાદી કા પહલા દા'વત નામા
- મક્તૂબાતે અત્તારિયા
- બ-ર-કત વાલા નિકાહ
- શહઝાદએ અત્તાર કી શાદી
- મ-દની સેહરે

મક-ત-બતુલ મદીના

દા'વતે ઈસ્લામી



સિલ્વેસ્ટેસ હાઉસ, અલિફ ઈ મસ્જિદ કે સામને, ટીન દરવાઝા, અહમદાબાદ-૧ ગુજરાત, ઇન્ડિયા
 Mo.091 93271 68200 E-mail : maktabaahmedabad@gmail.com www.dawateislami.net



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

કિતાબ પઢને કી દુઆ

અઝ : શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઇસ્લામી
હઝરતે અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અત્તાર
કાદિરી ર-ઝવી دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ

દીની કિતાબ યા ઇસ્લામી સબક પઢને સે પહલે ઝૈલ મેં દી હુઈ
દુઆ પઢ લીજિયે إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ જો કુછ પઢેંગે યાદ રહેગા. દુઆ યેહ હૈ :

اللَّهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَأَنْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

તરજમા : ઐ અલ્લાહ ઇઝ્ઝલ્લ જલ્લ ! હમ પર ઇલ્મો હિક્મત કે દરવાઝે
ખોલ દે ઔર હમ પર અપની રહમત નાઝિલ ફરમા ! ઐ અ-ઝમત
ઔર બુરુર્ગી વાલે !

(المستطرف ج ١ ص ٤٠٤ دار الفكر بيروت)

નોટ : અવ્વલ આખિર એક એક બાર દુરુદ શરીફ પઢ લીજિયે.

તાલિબે ગમે મદીના
વ બકીઅ
વ મગ્ફિરત



13 શવ્વાલુલ મુકર્રમ 1428 હ.હ.

“સુન્નતે નિકાહ”

યેહ રિસાલા (સુન્નતે નિકાહ)

મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી) ને ઉર્દૂ ઝબાન મેં પેશ ક્રિયા હૈ.

મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઈસ્લામી) ને ઈસ રિસાલે કો ગુજરાતી રસ્મુલ ખત મેં તરતીબ દે કર પેશ ક્રિયા હૈ ઓર મક-ત-બતુલ મદીના સે શાએઅ કરવાયા હૈ. ઈસ મેં અગર કિસી જગહ કમી બેશી પાએં તો મજલિસે તરાજિમ કો (બ ઝરીઅએ મક્તૂબ, ઈ-મેઇલ યા SMS) મુત્તલઅ ફરમા કર સવાબ કમાઇયે.

રાબિતા : મજલિસે તરાજિમ (દા'વતે ઈસ્લામી)

મક-ત-બતુલ મદીના

સિલેક્ટેડ હાઉસ, અલિફ કી મસ્જિદ કે સામને,
તીન દરવાઝા, અહમદઆબાદ-1, ગુજરાત, ઈન્ડિયા

MO. 9374031409

E-mail : translationmaktabhind@dawateislami.net

પહલે ઘસે પટ લીજિયે

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! “અપની ઔર સારી દુન્યા કે લોગોં કી ઈસ્લાહ કી કોશિશ” કે લિયે દીગર ઝરાએઝ કે સાથ સાથ બુઝુગાને દીન رَحْمَةُ اللهِ الْمُبِينِ કે હાલાત વ વાકિઆત જાનના ભી બેહદ મુફીદ હૈ ક્યૂંકે યેહ નુફૂસે કુદસિયા અહકામે શરીઅત પર મઝબૂતી સે કારબાન્દ થે. યુનાન્યે ઈન્હી કે નકશે કદમ પર ચલ કર હમ અલ્લાહ રબબુલ ઈઝ્જત કી રહમત સે કબ્રો હશર મેં સુર્ખ-રૂ હો કર અઝાબાતે દોઝખ સે ખલાસી ઔર ઈન્આમાતે જન્નત તક રસાઈ પા સકતે હેં. ઝબાની ઔર ક-લમી દોનોં તરહ સે તઝકિરએ સાલિહીન હમારે અકાબિરીન رَحْمَةُ اللهِ الْمُبِينِ કા શેવા રહા હૈ શાયદ ઈસી લિયે સીરત નિગારી કા યેહ સિલ્સિલા કઈ સદિયોં સે જારી હૈ. الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ. દા'વતે ઈસ્લામી કે ઈશાઅતી ઈદારે મક-ત-બતુલ મદીના સે સીરત કે મૌઝૂઅ પર ભી કઈ કુતુબો રસાઈલ શાએઝ હો ચુકે હેં, મ-સલન સીરતે મુસ્તફા صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, સહાબએ કિરામ (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ) કા ઈશકે રસૂલ, ઈમામે હુસૈન (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) કી કરામાત, જિન્નાત કા બાદશાહ, સાંપ નુમા જિન્ન, તઝકિરએ ઈમામ અહમદ રઝા રહમાનુલ્લાહ, રહીમુલ્લાહ, ફકીહે આ'ઝમે હિન્દ, શર્હે શ-જ-રએ કાદિરિયા વગૈરહા. ઈસી સિલ્સિલે કી એક કડી “તઝકિરએ અમીરે અહલે સુન્નત” ભી હૈ જિસ મેં પન્દરહવીં સદી કી અઝીમ ઈલ્મી વ રૂહાની શખ્સિયત શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત, બાનિયે દા'વતે ઈસ્લામી હઝરતે

अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि र-उवी ज़ियाई بِرَّكَاتٍ كَثِيرَةٍ के इब्तिदाई डालाते जिन्दगी, रोज मर्रा के मा'भूलात, इबादात, मुज्ज-हदात, अज्जलाक़िय्यात व दीनी बिदमात के वाकिआत के साथ साथ आप की जाते मुबा-रका से जाहिर डोने वाली अ-रकात व करामात और आप की तस्नीफ़ात, मकतूबात, अयानात व मक्कूजात के इयूजात भी जम्अ किये गअे हें. इलहाल “तजक़िरअे अमीरे अहले सुन्नत” को मुफ्तसर रसाथल की सूरत में शाअेअ किया ज़ रडा है ता के मु-तवस्सित तअे से तअल्लुक रअने वाले इस्लामी भाई भी अ आसानी इन्हें अरीद कर पढ सकें. إِنَّا لِلَّهِ عَوَّضٌ भा'द में इन रसाथल का मजमूआ भी शाअेअ किया ज़अेगा. इस वक्त “तजक़िरअे अमीरे अहले सुन्नत” का तीसरा हिस्सा अनाम “सुन्नते निकाह” आप के सामने है. إِنَّا لِلَّهِ عَوَّضٌ यौथा हिस्सा “शौके इल्मे दीन” के नाम से अन्करीअ पेश किया ज़अेगा. इस का पहला और दूसरा हिस्सा भी मक-त-अतुल मदीना से इदिय्यतन तलअ कीजिये.

म-दनी इदितिजा : “तजक़िरअे अमीरे अहले सुन्नत” में अम ने मइज़ सुनी सुनाई आतों को नकल करने से गुरेज किया है अल्ले अतल मकदूर मा'लूमात इराअम करने वालों से मुलाकात या राबिता कर के तस्दीक कर ली गई है. ताअम अम मइज़ अशर हें अता से पाक नहीं, इर कम्पोज़िंग की ग-लती भी मुम्किन है. इस लिये दर-ज्वास्त है के

અગર આપ કો ઈન રસાઈલ મેં કિસી કિસ્મ કી ગ-લતી નઝર આએ તો અપને નામ વ પતે કે સાથ તહરીરી તૌર પર હમારી ઈસ્લાહ ફરમા દીજિયે. ઔર અગર કિસી કો ઈસ તઝકિરે મેં શામિલ હાલાત વ વાકિઆત કે બારે મેં મઝીદ મા'લૂમાત હોં યા કોઈ મશ્વરા દેના યાહેં તો વોહ ભી સરે વરક પર લિખે હુએ ફોન નમ્બર પર યા બઝરીઅએ ડાક યા ઈ-મેઈલ રાબિતા ફરમા લેં. હમેં મૈદાને તાલીફો તસ્નીફ કી શહ સુવારી કા દા'વા હરગિઝ નહીં બલ્કે જઝબા હી હમારા રહનુમા હૈ, બહર હાલ હમારી ભરપૂર કોશિશ હોતી હૈ કે જિતના બન પડે ઈ-શા પરદાઝી (યા'ની ફને તહરીર) ઔર સવાનેહ નિગારી કે ઉસૂલોં કા ખયાલ રખેં, લિહાઝા ઈસ “તઝકિરે” કો ઉર્દૂ અદબ કા શાહકાર સમઝને કે બજાએ એહસાસે ઝિમ્માદારી કે અવરાક મેં લિપટા હુવા તોહફા સમઝ લીજિયે. જો અન્દાઝ આપ કો પસન્દ આએ વોહ તઝકિરએ અમીરે અહલે સુન્નત કે હુસ્ન કી રા'નાઈ ઔર કાબિલે એ'તિરાઝ હિસ્સા હમારી કોતાહ ફહમી કા નતીજા હોગા. અલ્લાહ جَزَّوَجَلَّ سے દુઆ હૈ કે હમેં “અપની ઔર સારી દુન્યા કે લોગોં કી ઈસ્લાહ કી કોશિશ” કે લિયે મ-દની ઈ-આમાત કે મુતાબિક અમલ ઔર મ-દની કાફિલોં કા મુસાફિર બનતે રહને કી તૌફીક અતા ફરમાએ.

اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

શો'બએ અમીરે અહલે સુન્નત (દા'વતે ઈસ્લામી)

મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

13 શવ્વાલુલ મુકર્રમ 1429 સિ.હિ., 13 અક્તૂબર 2008 સિ.ઈ.

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

दुइद शरीफ़ की इमीलत

सख्यिदुल मुर-सलीन, भा-तमुन्नबिख्यीन, जनाभे
रहुमतुदिलल आ-लमीन صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने बिशारत
निशान है : “जो मुज पर शभे जुमुआ और जुमुआ के रोज सो बार दुइद
शरीफ़ पढे, अदलाह तआला उस की सो हाजतें पूरी इरमाओगा.”

(جامع الاحاديث للسيوطي، رقم ٧٣٧٧، ج ٣، ص ٧٥)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

शादी सुन्नत है

उम्मुल मुअमिनीन हजरते सख्यि-दतुना आठशा सिदीका
रुजुतुल मुअमिनीन से मरवी है के अदलाह के मलभूभ, दानाओ गुयूभ,
मुनज़ुलहुन अनिल उयूभ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ईशाद इरमाया :
“निकाह मेरी सुन्नत से है पस जो शप्स मेरी सुन्नत पर अमल न करे
वोह मुज से नही. लिहाजा निकाह करो, क्यूंके में तुम्हारी कसरत की बिना
पर दीगर उम्मतों पर इफ़्र करूंगा. जो कुदरत रभता हो वोह निकाह
करे और जो कुदरत न पाओ तो रोजे रभा करे क्यूंके रोजा शह्वत को
तोडता है.”

(سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب ماجاء في فضل النكاح، رقم ١٨٤٦، ج ٢، ص ٤٠٦)

નિકાહ કરના કબ સુન્નત હૈ ?

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! અગર મહર, નાન વ નફકા દેને ઔર ઈઝદિવાજી હુકૂક પૂરે કરને પર કાદિર હો ઔર શહૂવત કા બહુત ઝિયાદા ગ-લબા ન હો તો નિકાહ કરના સુન્નતે મુઅક્કદા હૈ. ઐસી હાલત મેં નિકાહ ન કરને પર અડે રહના ગુનાહ હૈ. અગર હરામ સે બચના...યા...ઈતિબાએ સુન્નત...યા..ઔલાદ કા હુસૂલ પેશે નઝર હો તો સવાબ ભી પાએગા ઔર અગર મહૂલ હુસૂલે લઝ્ઝત યા કઝાએ શહૂવત મક્સૂદ હો તો સવાબ નહીં મિલેગા, નિકાહ બહર હાલ હો જાએગા. (માખૂઝ અઝ બહારે શરીઅત, કિતાબુન્નિકાહ, હિસ્સા : 7, સ. 559)

નિકાહ કરના ફર્ઝ ભી હૈ ઔર હરામ ભી !

નિકાહ કભી ફર્ઝ, કભી વાજિબ, કભી મક્રૂહ ઔર બા'ઝ અવકાત તો હરામ ભી હોતા હૈ. યુનાન્થે અગર યેહ યકીન હો કે નિકાહ ન કરને કી સૂરત મેં ઝિના મેં મુબ્તલા હો જાએગા તો નિકાહ કરના ફર્ઝ હૈ. ઐસી સૂરત મેં નિકાહ ન કરને પર ગુનાહગાર હોગા. અગર મહર વ નફકા દેને પર કુદરત હો ઔર ગ-લ-બએ શહૂવત કે સબબ ઝિના યા બદ નિગાહી યા મુશ્ત ઝની મેં મુબ્તલા હોને કા અન્દેશા હો તો ઈસ સૂરત મેં નિકાહ વાજિબ હૈ અગર નહીં કરેગા તો ગુનાહગાર હોગા. અગર યેહ અન્દેશા હો કે નિકાહ કરને કી સૂરત મેં નાન વ નફકા યા દીગર ઝરૂરી બાતોં કો પૂરા ન કર સકેગા તો અબ નિકાહ

करना मकरूड है. अगर येह यकीन छो के निकाह करने की सूरत में नान व नइका या दीगर ज़रूरी बातों को पूरा न कर सकेगा तो अब निकाह करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है (औसी सूरत में शइवत तोउने के लिये रोजे रभने की तरकीब बनाये.

(भापूज अज बहारे शरीअत, किताबुनिकाह, डिस्सा : 7, स. 559)

निकाह की नियतें

नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, द्यो जहं के ताजवर, सुल्ताने बहरो बर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने आलीशान है : يَا نَبِيَّ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٍ مِنْ عَالِهِ : अमल से बेइतर है. (المعجم الكبير للطبرانی، الحديث: 5932، ج 1، ص 185). जितनी अख़री नियतें ज़ियादा उतना सवाब भी ज़ियादा.

शैभे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी हज़रते अद्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि र-अवी इरमाते हैं : निकाह करने वाले को याइये के अख़री अख़री नियतें कर ले ताके दीगर इवाइद के साथ साथ वोह सवाब का भी मुस्तहिक छो सके.

“નિકાહ સુન્નત હૈ” કે નવ હુરૂફ કી નિસ્બત સે 9 નિયતોં પેશે ખિદમત હૈ :

{1} સુન્નતે રસૂલ ﷺ કી અદાએગી કરુંગા
 {2} નેક ઔરત સે નિકાહ કરુંગા {3} અચ્છી કૌમ મેં નિકાહ કરુંગા
 {4} ઇસ કે ઝરીએ ઈમાન કી હિફાઝત કરુંગા {5} ઇસ કે ઝરીએ શર્મગાહ કી હિફાઝત કરુંગા {6} ખુદ કો બદ નિગાહી સે બચાઊંગા
 {7} મહૂઝ લઝઝત યા કઝાએ શહૂવત કે લિયે નહીં હુસૂલે ઔલાદ કે લિયે તખ્લિયા કરુંગા {8} મિલાપ સે પહલે “બિસ્મિલ્લાહ” ઔર મસ્નૂન દુઆ પઢુંગા {9} સરકાર ﷺ કી ઉમ્મત મેં ઇઝાફે કા ઝરીઆ બનુંગા.

મ-દની મશવરા : શાદી શુદગાન નિયતોં વગૈરા કી મઝીદ મા'લૂમાત કે લિયે ફતાવા ર-ઝવિયા (તખરીજ શુદા) જિલ્દ 23, સફહા નમ્બર 385, 386, પર મસ્અલા નમ્બર 41, 42 કા મુતા-લઆ ફરમા લે.

(માખૂઝ અઝ તરબિયતે ઔલાદ, સ. 33)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
અમીરે અહલે સુન્નત كَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ
નિકાહે મુબારક

શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત બાનિયે દા'વતે ઇસ્લામી હઝરતે અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઇલ્યાસ

અત્તાર કાદિરી عَلَيْهِ السَّلَامُ કી શાદી ગાલિબન 1398 સિ.હિ., 1978 સિ.ઈ. મેં તકરીબન 29 બરસ કી ઉમ્ર મેં બાબુલ મદીના કરાચી મેં હુઈ.

કોઈ રિશ્તા દેને પર તય્યાર ન થા !

અમીરે અહલે સુન્નત عَلَيْهِ السَّلَامُ ને એક મ-દની મુઝા-કરે¹ મેં સુવાલાત કે જવાબાત દેતે હુએ જો કુછ ઈશાદિ ફરમાયા ઉસ કા ખુલાસા અપને અલ્ફાઝ મેં પેશે ખિદમત હૈ યુનાન્યે આપ عَلَيْهِ السَّلَامُ ફરમાતે હૈં કે જબ મેરી શાદી કી સૂરત બની તો કોઈ રિશ્તા દેને કે લિયે તય્યાર ન હોતા થા ક્યૂંકે ઉસ વક્ત દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ કી બહારેં નહીં થીં ઓર હમારે મુઆ-શરે મેં દાઢી સજાને વાલે નૌ જવાન નિહાયત કમયાબ થે. ઉસ ઝમાને મેં ભી رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ મેરે ચેહરે પર સુન્નત કે મુતાબિક એક મુશ્ત દાઢી થી. આખિરે કાર એક જગહ રિશ્તા તૈ હુવા, લેકિન ચન્દ દિનોં બા'દ ઉન્હોં ને ભી મંગની તોડ દી.

બારગાહે રિસાલત صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ મેં ઇસ્તિગાસા

અમીરે અહલે સુન્નત عَلَيْهِ السَّلَامُ ફરમાતે હૈં : મંગની

1. મ-દની મુઝા-કરા દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ મેં ઉસ ઈજતિમાઅ કો કહતે હૈં જિસ મેં અમીરે અહલે સુન્નત عَلَيْهِ السَّلَامُ અકાઈદો આ'માલ, શરીઅતો તરીકત, તારીખો સીરત, તિબાબતો રૂહાનિયત વગેરા મુખ્તલિફ મૌઝૂઆત પર પૂછે ગએ સુવાલાત કે જવાબાત દેતે હૈં. મ-દની મુઝા-કરાત કી કેસિવેં, સીડીઝ ઓર વીસીડીઝ મક-ત-બતુલ મદીના કી કિસી ભી શાખ સે હદિય્યતન તલબ કીજિયે.

टूट जाने पर मैं बहुत दिल बरदाश्ता हुआ और एक रात अपने महल्ले की बादाभी मस्जिद (मीठा दर बाबुल मदीना कराची) में बैठे बैठे बारगाडे रिसालत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ में मन्जूम इस्तिगासा पेश किया जिस में मजमून कुछ यूं था के या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ! मैं आप की सुन्नत पर चलना चाहता हूँ लेकिन लोग इस तरह के तर्जों अमल से मेरा दिल दृषाते हैं. اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ. कुछ ही अर्से में एक और जगह रिश्ते की तरकीब बन गई और शादी भी हो गई.

उन के निसार कोष कैसे ही रन्ध में हो

जब याद आ गये हैं सज गम भुला दिये हैं

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

मुकस्सिरे शहीर, हकीमुल उम्मत हजरते मुक्ती अहमद यार भान عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن हमारे मुआ-शरे में पाई जाने वाली इस तकलीफ़ देह सूरते डाल की अक्कासी करते हुआ अपनी किताब “इस्लामी जिन्दगी” के सफ़हा 36 ता 39 पर लिखते हैं: “मैं ने बहुत मुसल्मानों को कहते सुना के हम दाढी वाले को अपनी लडकी न देंगे, लडका शौकीन याखिये और बहुत जगह अपनी आंभों से देखा है के लडकी वालों ने दूल्हा से मुता-लभा किया के दाढी मुंडवा दो तो लडकी दी जा सकती है, युनान्चे लडकों ने दाढियां

मुंडवाँ, कहां तक दुब की बातें सुनाओं ? येह भी कहते सुना गया के नमाजी को लउकी न देंगे, वोह मस्जिद का मुल्लां है, हमारी लउकी के अरमान और शौक पूरे न करेगा. लउकी वालों को याहिये के दूल्हा में तीन बातें देणें, अक्वल तन्दुरुस्त हो, क्यूंके जिन्दगी की बहार तन्दुरुस्ती से है. दूसरे उस के बाल बलन अच्छे हों, बढ मआश न हो, शरीफ लोग हों, तीसरे येह के लउका हुनर मन्द और कमाओ हो के कमा कर अपने बीवी और बच्चों को पाल सके. मालदारी का कोई अे'तिबार नहीं येह बलती फिरती बांदनी है. हदीसे पाक में है के निकाह में कोई माल देभता है कोई जमाल. मगर **عَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ** (तुम दीनदारी देओ.) (صحیح مسلم, کتاب الرضاع, باب استحباب النکاح..... الخ, الحدیث १०१५, ص ११२)

येह भी याद रखो के मौलवियों और दीनदारों की बीवियां इशन वालों की बीवियों से जियादा आराम में रहती हैं. अक्वल तो इस लिये के दीनदार आदमी खुदा तआला के भौंफ से बीवी बच्चों का हक पहचानता है. दूसरे येह के दीनदार आदमी की निगाह सिर्फ बीवी ही पर होती है और आजाद लोगों की टेम्परेरी (temporary या 'नी आरिजी) बीवियां बहुत सी होती हैं. जिन का दिन रात तजरिबा हो रहा है. वोह झूल को सूंधता और हर भाग में

જાતા હૈ. કુછ દિનૌં તો અપની બીવી સે મહબ્બત કરતા હૈ ફિર આંખ ફેર લેતા હૈ. (ઈસ્લામી ઝિન્દગી, સ. ૩૬ તા ૩૭, મુલખખસન)

અલ્લાહ રબ્બુલ ઇમ્મત ઇમ્મત દેને વાલા હૈ

(અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** તહ્દીસે ને'મત કે તૌર પર ફરમાતે હૈં કે) એક વક્ત થા કે ખુદ મુઝે કોઈ રિશતા દેને કો તય્યાર ન થા ઔર આજ રબ્બે અકરમ **عَزَّوَجَلَّ** કા ઐસા કરમ હૈ કે લોગ મુઝ સે પૂછ પૂછ કર શાદિયાં કરતે હૈં કે તુમ કહો તો હમ કુલાં જગહ શાદી કર દે. અલ્લાહ તઆલા હી ઇમ્મત અતા ફરમાને વાલા હૈ.

وَتُعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ તર-જ-મએ કન્જુલ ઇમાન : ઔર જિસે યાહે ઇમ્મત દે ઔર જિસે યાહે જિલ્લત દે.
(પ ૩, આલ ઇમરાન : ૨૬)

(મ-દની મુઝા-કરા નમ્બર : ૪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

શાદિયોં મેં હોને વાલી બેહૂદા રસ્મેં

મીઠે મીઠે ઇસ્લામી ભાઈયો ! ફી ઝમાના હમારે મુઆ-શરે મેં મંગની ઔર શાદી કે મૌકઅ પર બા'ઝ ના જાઈઝ ઔર બેહૂદા રુસૂમાત ઈસ કદર રવાજ પા ગઈ હૈં કે ઉન કે બિગૌર તકરીબાત કો અધૂરા સમજા જાતા હૈ. અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ** શાદી બિયાહ કી તકરીબાત મેં હોને વાલે ગુનાહોં

की निशान देही करते हुअे अपने रिसावे “गाने बाजे की डोल नाकियां” में लिखते हैं :

अइसोस ! सद करोड अइसोस ! आजकल शाही जैसी भीठी भीठी सुन्नत बहुत सारे गुनाहों में घिर चुकी है, बेहूदा रुसूमात ईस का जुजूवे ला युङ्क बन चुकी हैं, **لَا تَلْبَسُوا الْبَدَائِعَ الَّتِي كَانَتْ لِقَوْمِكُمْ مِنْ قَبْلُ** डालात ईस कदर अन्तर डो युके हैं के जब तक बहुत सारे हराम काम न कर लिये जाओँ उस वक्त तक अब शाही की सुन्नत अदा डो ही नहीं सकती. म-सलन मंगनी डी की रस्म ले लीजिये ईस में लडका अपने डाय से लडकी को अंगूठी पहनाता है डालांके येड हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है. शाही में मर्द अपने डाय मेहंटी से रंगता है येड भी हराम है, मर्दों और औरतों की मख्लूत दा'वते की जाती हैं, या कहीं बराअे नाम बीय में पर्दा डाल दिया जाता है मगर फिर भी औरतों में गैर मर्द घुस कर जाना बांटते भूब वीडियो डिस्में बनाते हैं¹ शौकिया तस्वीरें बनाने और बनवाने वालों को अजाबे भुदा वन्दी से डर जाना थालिये के ! मेरे आका आ'ला डउरत **عَلَيْهِ رَحْمَةُ رَبِّ الْعَزَّةِ** नकल करते हैं, **رَسُوْلُهُ لَدَلَّ عَلَیْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللَّهُ سَلَّمَ** डरमाते हैं, डर तस्वीर बनाने वाला जहन्नम में है और डर तस्वीर के बहले जो उस ने बनाई थी अद्लाड **عَزَّ وَجَلَّ** अक मख्लूक पैदा करेगा जो उसे अजाब करेगी.”

(इतावा र-अविय्या, जि. 21, स. 427, रजा इाउन्डेशन मर्कजुल औलिया लाडोर)

1. कसीर उ-लमाअे किराम मख्लूबी बयानात वगैरा की वीडियो को जहंज करार देते हैं.

आह ! शादियों में भूष केशन परस्ती का मुजा-हरा किया जाता है, पानदान की जवान लडकियां भूष नायतीं, गातीं, गिधम मयाती हैं. इस दौरान मर्द भी बिला तकल्लुफ़ अन्दर आते जाते हैं, मर्द और औरतें ज़ बर कर बट निगाही करते हैं, भूष आंभों का जिना होता है, न भौक़े फ़ुदा غَرْ وَجَلَّ ن शर्मे मुस्तफ़. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. सुनो सुनो ! रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने इध्रत निशान है, “आंभों का जिना देपना और कानों का जिना सुनना और ज़बान का जिना बोलना और हाथों का जिना पकडना है.” (२१०७ حدیث، ص १६२८، مسلم شریف) याद रभिये ! गैर मर्द गैर औरत को देभे या गैर औरत गैर मर्द को शइवत से देभे येह हराम और दोनों के दिये जइन्नम में ले जाने वाले काम हैं.

ना इरमानी की नुइसत

इल्मी रेकोर्डिंग के बिगैर आजकल शायद ही कहीं शादी होती हो. अगर कोई समजाये तो भा'ज अवकात जवाब मिलता है, वाह साहिब ! अल्लाह غَرْ وَجَلَّ ने पडली बय्यी की फ़ुशी दिभाई है और गाना बाजा न करे, बस ज़ फ़ुशी के वक्त सभ कुछ यलता है. (مَعَادُ اللهِ غَرْ وَجَلَّ) अरे नादानो ! फ़ुशी के वक्त अल्लाह غَرْ وَجَلَّ का शुक्र अदा किया जाता है के फ़ुशियां तवील हों, ना इरमानी नहीं की जाती, कहीं ऐसा न हो के इस ना इरमानी की नुइसत से इकलौती बेटी दूल्हन बनने के आठवें दिन इठ कर मयके आ बैठे और मजीद आठ

दिन के बा'द तीन तलाक का परया आ पडोंये और सारी पुशियां धूल में मिल जाअें. या धूमधाम से नाय गानों की धमा थौकडी में बियाडी दुई दुल्हन 9 माह के बा'द पडली डी जयगी में मौत के घाट उतर जाअे. आह ! सद हज़ार आह !

महबबत पुसूमात में भो गई येह उम्मत रुसूमात में भो गई

शादी की पुशी में गाने बजाने का गुनाह करने वालो ! कान भोल कर सुनो ! उदीसे पाक में है, “दो आवाजों पर दुन्या व आभिरत में ला'नत है, (1) ने'मत के वक्त बाज (2) मुसीबत के वक्त थिल्लाना.”

(کنز العمال، حدیث ۴۰۶۵۴، ج ۱۵، ص ۹۵ دار الکتب العلمیہ بیروت)

(गाने बाजे की डोल नाकियां, स. 7 ता 13)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ना जधज रस्मों से पाक शादी

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो ! आप ने मुला-हजा इरमाया के अभीरे अडले सुन्नत **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ** शादी बियाह की पुशी में डोने वाली बेडूदा तकरीबात को न सिर्फ़ पुद ना पसन्द करते हैं बल्के दीगर मुसल्मानों को भी इन गुनाहों तरे मा'भूलात से ईजतिनाब की शक़त आमेज ताकीद इरमा रहे हैं, तो तला कैसे मुकिन था के अभीरे अडले सुन्नत **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ** की अपनी शादी में गुनाहों तरी तकरीबात मुअकिद की जाती या ना जईज रस्मों पर अमल

ક્રિયા જાતા ! હરગિઝ નહીં બલકે હમારા હુસ્ને ઝન હૈ કે
 الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ
 आप दाम्पत्य ब्रह्मचर्य की शादी कुजूल व ना जाँज रस्मों से पाक
 और धन्तिडाई सा-दगी का मज़्हर रही होगी.

બ-ર-કત વાલા નિકાહ

ઉમ્મુલ મુઅમિનીન હઝરતે આઈશા સિદીકા رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا
 سے रिवायत है के नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के
 ताजवर, सुल्ताने अहरो अर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरमाया :
 “अडी अ-र-कत वाला निकाह वोह है जिस में भोज कम हो.”

(مسنداحمد، الحديث ٢٤٥٨٣، ج ٩، ص ٣٦٥)

હકીમુલ ઉમ્મત હઝરતે મૌલાના મુફ્તી અહમદ યાર ખાન
 میرآتول مناجول में इस उदीस के तहत लिखते हैं :
 “या’नी जिस निकाह में इरीकेन का अर्थ कम कराया जाये, महर भी
 मा’भूली हो, जहेल तारी न हो, कोई जनिअ मक़्ज़ न हो जाये,
 किसी तरफ़ से शर्त सप्त न हो, अल्लाह (عَزَّوَجَلَّ) के तवक्कुल पर
 लउकी दी जाये वोह निकाह अडा ही आ अ-र-कत है अैसी शादी
 ખાના આબાદી હે, આજ હમ હરામ રસ્મોં, બેહૂદા રવાજોં કી વજહ
 से शादी को खाना अरबादी बलके खानडा (या’नी अहोत सारे धरों के
 विये बाईसे) अरबादी अना लेते हैं. अल्लाह तआला इंस उदीसे पाक
 पर अमल की तौईक दे.” (मिरआतुल मनाजोल, जि. 5, स. 11)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

मीठे मीठे ईस्लामी भाईयो ! अभीरे अडले सुन्नत
 دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की शादी मुबारक की मुप्तसर इदाद पढिये और
 उदीसे पाक की अ-र-कतों का फुली आंफों से नजारा कीजिये :

मस्जिद में निकाह हुवा

ईस जदीद दौर में ली जगमग जगमग करते शादी डोल के
 अजअे अभीरे अडले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ का निकाह मुस्तडअ
 तरीके पर मेमन मस्जिद (बोस्टन मार्केट बाबुल मदीना कराची) में
 हुवा. मुफ़्तिये आ'जम पाकिस्तान डजरते मौलाना मुफ़्ती वकारुदीन
 कादिरि عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي ने जुमुआ के दिन तकरीबन 11:00 अजे
 आप دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ का निकाह पढाया, जिस में लोगों की लारी
 ता'दाद ने शिकत की.

म-दनी इल : (1) निकाह फ्वां का आलिमे आ अमल डोना मुस्तडअ
 है. (मुलअअसन अज इतावा २-अविथ्या, जिद पन्जुम, स. 33, 61) (2) निकाह
 का अे'लानिया तौर पर, मस्जिद में और जुमुआ के दिन डोना मुस्तडअ
 है (अगर लडकी के घर या किसी और जगड डो तअ ली कोई डरज नही)

(الدرالمختار، كتاب النكاح، ج ٤، ص ٧٥)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

पेशकश : मजलसे अल मदीनतुल ईल्मिथ्या (दा'वते ईस्लामी)

कख्रिस्तान व मजारे मुबारक की हाजिरी

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! शादी की खुशी में सरशार दूल्हा उस दिन को यादगार बनाने के लिये क्या कुछ नहीं करता ? उस के अजीजो अकारिब की तरफ से उभूमन गुनाहों से भरपूर वेराईटी प्रोग्राम मुन्अकिद किये जाते हैं, तरड तरड की ज़र्रज व ना ज़र्रज रस्में निभाई जाती हैं. यूँ दूल्हा की आंभों पर ग़ज़लत की ऐसी पट्टी बंध जाती है के उसे कब्र की तन्हाईयां याद रहती हैं न मैदाने महशर की परेशानियां ! मगर दूसरी ज़ानिब अभीरे अडले सुन्नत دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ को देभिये के अपनी शादी के दिन कख्रिस्तान भी जा रहे हैं और निराले अन्दाज़ से इँके आभिरत भी कर रहे हैं :

(युनान्हे अभीरे अडले सुन्नत دَامَتُ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ इरमाते हैं)

नमाजे ज़ुमुआ नूर मस्जिद (कागज़ी बाजार बाबुल मदीना करायी) में मुफ़्ती वकारुदीन कादिरि رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की ईक्तिदा में अदा की, कख्रिस्तान भी गया और प्यारदर में वाकेअ डज़रते सख्यिद मुडम्मद शाड दूल्हा رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ के मजार शरीफ़ पर हाजिरी की सआदत भी हासिल हुई और हस्पताल जा कर अपने अक बहुत ही प्यारे दोस्त गुलाम यासीन कादिरि र-ज़वी (رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) जो के पून के सरतान (Blood Cancer) के मरीज थे उन की ईयादत

ली की. उन्हों ने मुझे मब्लग 25 रुपै शादी का तोहफा ईनायत इरमाया.¹

पुशी के मौकअ पर गम के मुआ-मलात में छिस्सा लेना याछिये ताके पुशियों के सबब ईन्सान ईतना न “इल” जाओ के “इट” जाओ. वैसे ली मेरा मुआ-मला ऐसा था के मेरे अन्दर गम की कैइय्यात बहुत थीं क्यूंके मैं मरीजों और परेशान डालों से मिलता रहता था, बेचारों की लाचारी से बडी ईश्रत मिलती है. ईस तरह से मैं ने अपनी शादी के दिन के अवकात मजकूरा अन्दाज पर गुजारने की सआदत डालिल की.

اَللّٰهُمَّ عَلٰى اَمِيْرِ اَهْلِ سُنَّةٍ رَحْمَةً وَّعَزْزًا وَّجَلًّا كِي اَمِيْرِيْ اَهْلِيْ سُنَّةٍ عَلٰى رَحْمَةٍ وَّعَزْزٍ وَّجَلٍّ كِي اَمِيْرِيْ अहले सुन्नत पर रहमत हो और धन के सडके हमारी मज्फिरत हो.

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّدٍ

म-दनी इल : जियारते कुबूर मुस्तडब है डर डइते में ओक दिन जियारत करे, जुमुआ या जुमा'रात या डइता या पीर के दिन मुनासिब है, सब में अइजल रोओ जुमुआ वक्ते सुबुड है. औलियाओ किराम के मजाराते तय्यिबा पर सइर कर के जाना जाईज है, वोड अपने जाईर को नइअ पडोयाते हैं और अगर वहां कोई मुन्करे शर-ई डो

1. कुछ दिन के बा'द गुलाम यासीन कादिरि عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي का ईन्तिकाल हो गया. अमीरे अहले सुन्नत عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي ने अपनी अम्मीजान (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا) के मजार से मुल्डक बनाया हुवा खबूतरा मर्हूम की कब्र के लिये पेश कर दिया. आज ली अम्मीजान (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهَا) के पडलू में मर्हूम की कब्र मौजूद है.

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल ईल्मिया (दा'वते ईस्लामी)

મ-સલન ઔરતોં સે ઈખ્તિલાત તો ઉસ કી વજહ સે ઝિયારત તર્ક ન કી જાએ કે ઔસી બાતોં સે નેક કામ તર્ક નહીં કિયા જાતા, બલકે ઉસે બુરા જાને ઔર મુશ્કિન હો તો બુરી બાત ઝાઈલ કરે.

(બહારે શરીઅત, હિસ્સા : 4, સ. 197)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

નમાઝોં કી બા જમાઅત અદાએગી

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! શાદી કી તકરીબાત મેં મસ્રૂફ હો કર અકસર લોગ અપની નમાઝોં કઝા કર બૈઠતે હૈં, મગર **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** અમીરે અહલે સુન્નત **اَللّٰهِ الْعَالِيَةِ** ને શાદી હોને કે બા'દ ભી હસબે આદત નમાઝોં જુમુઆ, અસ્ર, મગરિબ ઔર ઈશા બા જમાઅત અદા કી.

(અમીરે અહલે સુન્નત **اَللّٰهِ الْعَالِيَةِ** ને ફરમાતે હૈં) **عَزَّوَجَلَّ** રબ કે કરમ સે શુરૂઅ સે હી બા જમાઅત નમાઝ પઢને કા ઝેહ્ન થા, જમાઅત તર્ક કર દેના મેરી લુગત મેં હી નહીં થા. યહાં તક કે જબ મેરી વાલિદએ મોહ-ત-રમા કા ઈન્તિકાલ હુવા તો ઉસ વક્ત ઘર મેં દૂસરા કોઈ મર્દ ન થા, મૈં અકેલા થા મગર **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** માં કી મચ્ચિત છોડ કર મસ્જિદ મેં નમાઝ પઢાને કી સઆદત પાઈ. માં કે ગમ મેં દૌરાને નમાઝ મેરે આંસૂ ઝરૂર બહ રહે થે, મગર ઈસ સૂરતે હાલ મેં ભી **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** જમાઅત ન છોડી. ઈસી તરહ શાદી વાલે દિન ભી

तमाम नमाजें बा जमाअत अदा करने की सआदत हासिल हुएँ.
 अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ की अमीरे अहले सुन्नत पर रहमत हो और घन के सडके
 हमारी मज्फिरत हो.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
पैगामे अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ (रिसाला फातिहा का
 तरीका स. 24 मत्बूआ मक-त-भतुल मदीना) में तहरीर इरमाते हैं :
 ખબરદાર જબ ત્મી આપ કે યહાં (શાદી), નિયાજ, યા કિસી કિસ્મ કી
 તકરીબ હો, નમાજ કા વક્ત હોતે હી કોઈ માનેએ શર-ઈ ન હો તો
 ઈન્કિરાદી વ ઈજતિમાઈ કોશિશ કે ઝરીએ તમाम મેહમાનોં સમેત
 નમાજે બા જમાઅત કે લિયે મસ્જિદ કા રુખ કરે. બલકે એસે અવકાત
 મેં દા'વત હી ન રખેં કે બીચ મેં નમાજ આએ ઓર ગહમા ગહમી યા
 સુસ્તી કે બાઈસ عَزَّ وَجَلَّ જમાઅત ફૌત હો જાએ. દો પહર કે
 ખાને કે લિયે ફૌરન બા'દે નમાજે ઝોહર ઓર શામ કે ખાને કે લિયે
 બા'દે નમાજે ઈશા મેહમાનોં કો બુલાને મેં ગાલિબન બા જમાઅત
 નમાજોં કે લિયે આસાની હૈ. મેઝબાન, બાવર્યા, ખાના તકસીમ કરને
 વાલે વગૈરા સત્મી કો યાહિયે કે વક્ત હો જાએ તો સારા કામ છોડ કર
 બા જમાઅત નમાજ કા એહતિમામ કરે. શાદી યા દીગર તકરીબાત
 વગૈરા ઓર બુઝુર્ગોં કી “નિયાજ” કી મસ્રૂફિયત મેં અલ્લાહ عَزَّ وَجَلَّ

की (हुकूम कदी) “नमाजे बा जमाअत” में कोताही बहुत बडी ग-लती है.

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

म-दनी दा'वत नामा

अेक भरतबा म-दनी मुजा-करे के दौरान अमीरे अहले सुन्नत दा'वत नामे से अर्ज की गई के हुजूर ! आप ने शाही का दा'वत नामा सब से पहले किस के नाम लिखा ? तो कुछ यूँ ईश'दिर माया ! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ जभ से डोश संभाला आ'ला डजरत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ सरकार के सद्के से मेरी मडुबतें सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से उर मुसल्मान के लिये ही हैं, यकीनन सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ को मडुबत है और डोनी ली याहिये के “لَا اِيْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ” (या'नी जिसे सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से मडुबत नहीं उस का ईमान कामिल नहीं) उर अेक की मडुबत का अपना अन्दाज डोता है, मेरा ली सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से मडुबत का अेक अन्दाज था के मैं याहता था के सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की षिदमत में दा'वत पेश कइं. लेकिन सोयता था के कैसे पेश कइं ? मैं मुसल्सल येड सोयता रड डिर आभिरे कार मुज से जो मुस्किन हुवा मैं ने शाही कार्ड पर अडकाभात लिखे और अेक मदीने के मुसाफिर के हाथ “शाही कार्ड” मदीने शरीफ़ लेज दिया.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ अेक ईस्लामी लार्थ ने सुनइरी जालियों के सामने पढ कर सुनाया. निकाह वाले दिन मेरी अज्जब कैङ्कियत थी में मुत्तरिब था के मेरे भीठे भीठे, मन मोडने, आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ कब तशरीफ लाते हैं ? बस येह मेरा अेक अन्दाज था.

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى عَزَّوَجَلَّ की अभीरे अहले सुन्नत पर रहमत हो और धन के सडके हमारी मङ्किरत हो.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

शबे उइसी में धन्क़िरादी कोशिश

अभीरे अहले सुन्नत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ फरमाते हैं : शादी की मस्इङ्कियात में दिन गुजार कर जब शबे उइसी का वक्त हुवा तो मेरे अन्वर¹ (Side friend) ने मुझे समझाना शुरुअ किया के अगर तुम्हारी अहलिया उलटे हाथ से कोई चीज दे तो पहली रात ही रोक टोक शुरुअ मत कर देना (क्यूं के अभीरे अहले सुन्नत صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की अहुत पुरानी आदते मुभा-रका है के जब कोई आप को उलटे हाथ से चीज पकडाने की कोशिश करे तो आप صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ अइसन अन्दाज में उस की ईस्लाह फरमा देते हैं के सीधे हाथ से चीज दीजिये के सुन्नत है उलटे हाथ से देना शैतान का काम है) यूंके वोह मेरी कैङ्कियत

1 : अन्वर उस शप्स को बोलते हैं जो अपने तजरिबात की रोशनी में दूल्हा को भरीदारी और दीगर मुआ-मलात में अपने भश्वरों से नवाजता है.

से वाकिफ़ थे, ईसी के पेशे नज़र फिर समझाया के “तुम हुसूले ईब्रत के लिये मौत की बातें करते रहते हो, पडली ही रात उस के सामने मौत का तजकिरा मत छोड देना.” मैं जामोशी से सुनता रहा.

ईत्तिफ़ाकन जब रात नौ बियाहता ने उलटे हाथ से कोई चीज़ देना याही तो **أَحْمَدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** हस्बे आदत सीधे हाथ से देने की तल्कीन की नीज़ वोही मौत का तजकिरा किया के देभो येह जुशियां जो हैं, येह सब आरिजी हैं, मौत तो दूल्हा को बारात से घसीट कर ले जाती है और दुल्हन को ह-ज-लअे उरूसी से उठा कर कब्र में डाल देती है. ईस तरह उन का म-दनी जेहून बनाने की कोशिश की.

नेल पोलिश क्यूं नही लगाई ?

अभीरे अडले सुन्नत **أَحْمَدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** मज़ीद फ़रमाते हैं के मैं ने (नाजुनों को देभते हुअे) पूछा : “नेल पोलिश कहां है ?” कडा : “नहीं लगाई.” पुछा : “क्यूं ?” कडा के “वुजू नहीं होता.” येह सुन कर मेरा दिल अहुत जुश हुवा के **أَحْمَدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** ईन का पडले से ही जेहून बना हुवा है. वरना मैं ने नेल पोलिश उतारने वाला लोशन ले रखा था के अगर नेल पोलिश लगाई हुई तो साफ़ कर दूंगा. **أَحْمَدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** उस के ईस्ति'माल की जिन्दगी में कभी नौबत ही नहीं आई.

म-दनी इल : हकीमुल उम्मत मुफ़ती अहमद यार ज़ान नईमी **عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَلِيِّ** लिाभते हैं : आजकल (औरतों में) नाजुन पर पोलिश

લગાને કા રવાજ હૈ મગર પોલિશ મેં જસામત હોતી હૈ ઈસ લિયે અગર નાખુનોં પર લગી હોગી તો ઔરત કા વુઝૂ યા ગુસ્લ ન હોગા કે પોલિશ કે નીચે પાની ન પહોંચેગા. (મિરઆતુલ મનાજિહ, જિ. 6, સ. 175) લિહાઝા અગર નેલ પોલિશ નાખુનોં પર લગી હુઈ હો તો ઉસ કા ઘુડાના ફર્જ હૈ વરના વુઝૂ વ ગુસ્લ નહીં હોગા. (ઈસ્લામી બહનોં કી નમાઝ, સ. 54)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

શબે ઉરૂસી મેં બયાન કી કેસિટ સુની !

મીઠે મીઠે ઈસ્લામી ભાઈયો ! અમીરે અહલે સુન્નત કી યેહ ઈન્કિરાદી કોશિશ બહુત સે ઈસ્લામી ભાઈયોં કે લિયે મશ્અલે રાહ બની, યુનાન્યે જામિઅતુલ મદીના (કન્ઝુલ ઈમાન મસ્જિદ બાબરી ચોક બાબુલ મદીના કરાચી) કે એક તાલિબે ઈલ્મ કા બયાન કુછ યૂં હૈ કે 15 શા'બાન મેં 1425 સિ.હિ. મેં (કે જબ મેં ૬-૨-૭૨ બામિસા કા તાલિબે ઈલ્મ થા) અપની શાદી કે મૌકઅ પર મેં ને રહનુમાઈ કે લિયે મુફિતયે દા'વતે ઈસ્લામી અલહાજ અલ કારી મૌલાના મુહમ્મદ ફારૂક અત્તારી અલ મ-દની رَحْمَةُ اللهِ الْعَلِيِّ جُو કે મેરે ઉસ્તાદ ભી થે, ઉન સે કુછ શર-ઈ મસાઈલ પૂછે જિસ કે જવાબાત દેને કે બા'દ આપ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلِيِّ ને ઈન્કિરાદી કોશિશ કરતે હુએ મુજે શબે ઉરૂસી મેં કેસિટ ઈજતિમાઅ કી તરગીબ દિલાઈ કે ઈસ તરહ આપ દોનોં કો રહનુમાઈ કે મુન્તઅદદ મ-દની ફૂલ મિલેંગે. યુનાન્યે મેં ને શબે ઉરૂસી

की इब्तिदा में अपनी दुल्हन के साथ बैठ कर अमीरे अडले सुन्नत की इब्तिदा में अपनी दुल्हन के साथ बैठ कर अमीरे अडले सुन्नत के बयान की केसिट “मियां भीवी के लुक्क” सुनी जिस से हमें मा’लूमात का अनमोल खजाना हाथ आया.¹

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدًا

बारगाहे रिसालत में सलातो सलाम पेश किया

दा’वते इस्लामी के तहकीकी व इशाअती इदारे अल मदीनतुल इल्मिया से वाबस्ता अेक म-दनी इस्लामी भाई ने बी म-दनी मुजा-करे में अमीरे अडले सुन्नत के बयान की केसिट “मियां भीवी के लुक्क” सुनी जिस से हमें मा’लूमात का अनमोल खजाना हाथ आया.¹

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدًا

नमाजे इज की ला जमाअत अदाअेगी

(अमीरे अडले सुन्नत के बयान की केसिट “मियां भीवी के लुक्क” सुनी जिस से हमें मा’लूमात का अनमोल खजाना हाथ आया.¹

1 : अमीरे अडले सुन्नत के बयान की केसिट “मियां भीवी के लुक्क” सुनी जिस से हमें मा’लूमात का अनमोल खजाना हाथ आया.¹

मस्जिदए नूर (जहां एमामत की जिम्मेदारी थी) में नमाजे इज की एमामत की सआदत पाई. फिर जब “अन्वर” से मुलाकात हुई तो उस ने बडा तअज्जुब किया के शादी की पडली रात गुजार कर इज पढाई ! येह कैसे पढाई ! मैं ने कहा : **الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** पढाई और कोई ग-लती भी नहीं हुई, येह अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ** का करम है.”

अल्लाह **عَزَّوَجَلَّ की अमीरे अहले सुन्नत पर रहमत हो और धन के सडके हमारी मज्फिरत हो.**

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

भीठे भीठे ईस्लामी भाईयो ! ईस खिकायत में उन दूल्हा साखिबान के लिये दर्स पोशीदा है जो नमाज के पाबन्द होते हुअे भी शभे उरूसी में शर्मा हुआ की वजह से गुस्ल नहीं करते और नमाजे इज कजा कर देते हैं (مَعَادِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ) डालां के औसा करना शर्मा हुआ नहीं बल्के परले दरजे की डमाकत और डराम और जडन्नम में ले जाने वाला काम है.

अमीरे अहले सुन्नत का वलीमा

उन दिनों में भी के जब टेबल कुर्सियां सजा कर बडे कर्ो कर के साथ वलीमे किये जाते थे, अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** का वलीमा शभे जिङाङ के दूसरे दिन सुन्नत के मुताबिक औसी सा-दगी के साथ हुवा था के जिस तरड नियाज वगैरा में भिलाया जाता है ईसी तरड मेडमानों को दरी पर बिडा कर थालों में पाना

पेश किया गया. पाने में सिर्फ अकनी यावल (या'नी पुलाव) और जर्दा था. मकान के बैरुनी हिस्से पर किसी किस्म की मुरव्वज सजावट या बर्की कुमकुमों की तरकीब न थी, टेप पर सिर्फ ना'ते यलाने का सिक्सिला था.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ

“वलीमा सुन्नत है” के इस हुर्रफ की निरुधत से वलीमे के 10 म-दनी हूल

(अज : शैभे तरीकत अभीरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद एल्यूस अत्तार कादिरि عَلَيْهِ السَّلَامُ)

(1) दा'वते वलीमा सुन्नत है. वलीमा येह है के शभे जिफाफ की सुभु को अपने दोस्त अहबाब अजीजो अकारिब और महल्ले के लोगों की हस्बे एस्तिताअत जियाइत करे.

(2) वलीमे के लिये अहुत जियादा लीड करना शर्त नहीं है, दो तीन दोस्त या रिश्तेदार हों तो ली वलीमा हो सकता है.

(3) एस के लिये पन्दरह किस्म की डिशें बनाने की ली कोई जरूरत नहीं, हस्बे हैसियत दाल यावल या गोशत वगैरा जो ली पाना आप पेश कर सकते हैं, पेश कर दीजिये वलीमा हो जायेगा.

(4) जो लोग वलीमे में बुलाये जायें उन को जाना याहिये के उन का जाना हूलडा और उस के घर वालों के लिये मुसर्रत का बाईस होगा.

(5) દા'વતે વલીમા કા યેહ હુકમ જો બયાન ક્રિયા ગયા હૈ, ઉસ વક્ત હૈ કે દા'વત કરને વાલો કા મક્સૂદ અદાએ સુન્નત હો ઔર અગર મક્સૂદ તફાખુર (યા'ની ફખ્ર જતાના) હો યા યેહ કે મેરી વાહ વાહ હોગી જૈસા કે ઈસ ઝમાને મેં અક્સર યેહી દેખા જાતા હૈ, તો ઐસી દા'વતોં મેં ન શરીક હોના બેહતર હૈ ખુસૂસન અહલે ઈસ્મ કો ઐસી જગહ ન જાના ચાહિયે.

(6) દા'વત મેં જાના ઉસ વક્ત સુન્નત હૈ જબ મા'લૂમ હો કે વહાં ગાના, બજાના, લહ્વો લઈબ નહીં હૈ ઔર અગર મા'લૂમ હૈ કે યેહ ખુરાફાત વહાં હેં તો ન જાએ.

(7) જાને કે બા'દ મા'લૂમ હુવા કે વહાં લગ્વિચ્યાત હેં, અગર વહીં યેહ ચીઝેં હોં તો વાપસ આએ ઔર અગર મકાન કે દૂસરે હિસ્સે મેં હેં જિસ જગહ ખાના ખિલાયા જાતા હૈ વહાં નહીં હેં તો વહાં બેઠ સકતા હૈ ઔર ખા સકતા હૈ ફિર અગર યેહ શખ્સ ઉન લોગોં કો રોક સકતા હૈ તો રોક દે ઔર અગર ઈસ કી કુદરત ઉસે ન હો તો સખ્ર કરે.

(8) યેહ ઈસ સૂરત મેં હૈ કે યેહ શખ્સ મઝહબી પેશવા ન હો ઔર અગર મુક્તદા વ પેશવા હો, મ-સલન ઉ-લમા વ મશાઈખ, યેહ અગર ન રોક સકતે હોં તો વહાં સે ચલે આએ ન વહાં બેઠે ન ખાના ખાએ ઔર પહલે હી સે યેહ મા'લૂમ હો કે વહાં યેહ ચીઝેં હેં તો મુક્તદા હો યા ન હો કિસી કો જાના જાઈઝ નહીં અગર્યે ખાસ ઉસ

डिस्सअे मकान में येड यीजें न डों बडके दूसरे डिस्से में डों.

(9) अगर वडं डडवो डरुड डो और येड शप्स जनता डै के मेरे जाने से येड यीजें बन्द डो जअेंगी तो उस को डस नियत से जाना याडिये के डस के जाने से मुन्दराते शरुडय्या (या'नी गुनाडों के काम) रोक डिये जअेंगे और अगर मा'लूम डै के वडं न जाने से उन डोगों को नसीडत डोगी और अैसे डौकअ पर येड ड-र-कतें न करेंगे, क्यूंके वोड डोग उस डी शिर्कत को जरुरी जानते डें और जब येड मा'लूम डोगा के अगर शाडियों और तकरीबों में येड यीजें डोंगी तो वोड शप्स शरीक न डोगा तो उस पर लाजिम डै के वडं न जअे ताके डोगों को डड्रत डो और अैसी ड-र-कतें न करें.

(10) डर'वते वलीमा सिर्ई डडले डिन डै या उस के डर'द दूसरे डिन डी या'नी डो² डी डिन तक येड डर'वत डो सकती डै, डस के डर'द वलीमा और शाडी डत्म. डक व डिन्द में शाडियों का सिड्सिवा कड डिन तक कडम रडता डै. सुन्नत से आगे बडना रिया व सुम्मा डै डस से डयना जरुरी डै.

(माडूज अज बडारे शरीअत, डिस्सा : 16, स. 34 ता 36)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

रारुड डी सुन्नत

(अभीरे अडले सुन्नत إِنَّهُمُ الْعَالِيَهُ डरमाते डें) में ने

येह पढ और सुन रभा था के सरकार صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ यटाई बल्के इर्शी भाक पर सोते थे. الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ भरसों से मेरी यटाई पर सोने की आदत थी. शादी की पहली रात के भा'द में फिर अपनी यटाई पर था. पलंग आहिस्ता आहिस्ता स्टोर रूम में मुन्तकिल हो गया और उस के भा'द घर का झालिल सामान पलंग पर रख दिया गया. अब ली हमारे घर में सोफ़ा सेट है न पलंग, हां घर की बालाई मन्जिल में जो किताब घर है वहां अेक सोफ़ा मौजूद है जिस पर मैं कभी कभी बैठ जाता हूं, इस्लामी त्वाइयों में से किसी ने ला कर रख दिया, अपने उस मेहरबान का नाम अब ली मुझे नहीं मा'लूम. **अल्लाह عَزَّوَجَلَّ की अमीरे अहले सुन्नत पर रहमत हो और धन के सडके हमारी मग़्फ़िरत हो.**

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

जहेन के हुकूक

अमीरे अहले सुन्नत صَلُّوا عَلَيَّ الْعَالِيَةِ ने अेक बार इरमाया, यूंके जहेन शर-ई तौर पर बीवी की मिल्क होता है इस लिये मैं ने अपने बच्चों की वालिदा से अेक बार नहीं बल्के मुप्तलिफ़ मवाकेअ पर जहेन से मु-तअद्लिक हुकूक मुआफ़ करवाअे हैं. अेक बार अेक युटकुला यूं हुवा के मैं ने बच्चों की वालिदा से जहेन से मु-तअद्लिक जब अेडतियातन मुआफ़ी मांगी तो उन्हों ने कहा : “अेक बार मुआफ़ कर तो दिया अब

कब तक मुआही मांगते रहेंगे ?”

अल्लाह عَزَّ وَجَلَّ की अमीरे अहले सुन्नत पर रहमत हो और धन के सडके हमारी मगि़रत हो.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ الْعَالِيَهُ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ

को अेक बेटी और दो बेटों से नवाजा है. बेटों के नाम (1) अलहाज मौलाना अबू उसैद अडमद उबैदुरजा कादिरी र-जवी अत्तारी अल म-दनी مَدَّظَلُّهُ الْعَالِيُّ और (2) हाज्ज मुहम्मद बिलाव रजा अत्तारी مَدَّظَلُّهُ الْعَالِيُّ हैं. अल्लाह तआला ँन को दराजिये उम्र बिलभैर और दिन रात दा'वते ँस्लामी के म-दनी कामों की धूमें मयाने की तौफ़ीक अता करमाओ.

اٰمِيْنَ بِجَاةِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

शहजादअे अत्तार की शादी

मीठे मीठे ँस्लामी भाँथयो ! जहां अमीरे अहले सुन्नत مَدَّظَلُّهُ الْعَالِيَهُ ने अपनी शादी खाना आबादी में हर मौकअ पर शर-ँ अडकाम की पासदारी की, वही आप ने अपने शहजादअे खुश लिका, उइसे दिलरुबा, अलहाज मौलाना अबू उसैद अडमद उबैदुरजा कादिरी र-जवी अत्तारी अल म-दनी مَدَّظَلُّهُ الْعَالِيَهُ की “शादी” के पुर मुसरत लम्हात में तमाम मुआ-मलात शरीअत के अैन मुताबिक रखने पर ली लरपूर तवज्जोड करमाँ. जिस के नतीजे में

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ येड शादी मुबारक त्मी ँन्तिडाई सा-दगी का मज़्हर
और दौरे हाज़िर की मिसाली शादी करार पराई.

मरडबा अत्तार का लफ्ते जिगर दूल्हा बना

पुशनुमा सेडरा उबैदे कादिरि के सर सज

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

तकरीबे निकाड

शडजादअे अत्तार مَدَّ ظُنُّهُ الْعَالِي के निकाड की तकरीब बर्की
कुमकुमों से जग-मगाते शादी डोल के बज्जे मदीनतुल औलिया
मुलतान शरीफ में डोने वाले दा'वते ईस्लामी के तीन रोज़ा सुन्नतों
भरे बैनल अक़्वामी ईजतिमाअ में 18 अक्टूबर 2003 सि.ई. को
शबे ईतवार बडी सा-दगी के साथ अन्जाम पाई.

भराती हें तमामी अडले सुन्नत

उबैदे कादिरि दूल्हा बना हें

तिलावत के बा'द पुरसोज ना'तें पढी गई, रिक्त
अंगेज समां था, पुत्बअे निकाड पढ कर अमीरे अडले सुन्नत
دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي ने निकाड पढाया फिर धूडारे लुटाअे गअे ज़े
मन्थ (स्टेज) के करीब मौजूद मप्सूस ईस्लामी त्माईयों ने लूटे. निकाड
के बा'द धूडारे लुटाने के बारे में आ'ला डज़रत عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى
इरमाते हें के “डदीस शरीफ में लूटने का हुकूम है और लुटाने में त्मी

કોઈ હરજ નહીં.”

(અહકામે શરીઅત, સ. 232)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

રુખ્સતી કી તારીખ

આ'લા હઝરત رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا یوں مے ویلاદت 10 શવ્વાલુલ મુકર્રમ હૈ લિહાઝા ઇસ નિસ્બત કી બ-ર-કતોં કે હુસૂલ કે લિયે રુખ્સતી કી તકરીબ શવ્વાલુલ મુકર્રમ 1426 સિ.હિ., 2005 સિ.ઈ. કી દસવીં શબ રખી ગઈ.

में इमाम अहमद रजा का हूं गुलाम

કિતની આ'લા મુઝ કો નિસ્બત મિલ ગઈ

(મુઝીલાને મદીના)

મકાન પર સજાવટ

ઈસ મૌકઅ પર દેખને વાલે હૈરત ઝદા થે કે દુન્યાએ અહલે સુન્નત કે અમીર, બાનિયે દા'વતે ઇસ્લામી رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے શહઝાદે કી શાદી કે મૌકઅ પર ઘર પર મુરવ્વજા સજાવટ યા બકી કુમકુમોં વગૈરા કી કોઈ તરકીબ હી નહીં થી.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

પુર તકલ્લુફ જહેઝ લેને સે ઇન્કાર

હાજી અહમદ ઉબૈદ રજા مَدْرِيَّةُ الْعَالِي کی શાદી મેં જબ લડકી વાલોં ને પુર તકલ્લુફ જહેઝ દેના યાહા તો અમીરે અહલે

સુન્નત સَلَّوْا عَلَيَّ الْعَالِيَةِ نَعَمْ بِرَكَاتِهِمْ الْعَالِيَةِ ને ઉન્હેં સા-દગી અપનાને કી તલકીન કી. દૂસરી તરફ શહાદએ અત્તાર سَلَّوْا عَلَيَّ الْعَالِيَةِ نَعَمْ بِرَكَاتِهِمْ الْعَالِيَةِ ભી પલંગ વગેરા કી બજાએ ચટાઈ કબૂલ કરને પર રિજા મન્દ હુએ.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

ઇજતિમાએ ઝિકો ના'ત

શહાદએ અત્તાર صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ الْعَالِيَةِ કી શાદી કી ખુશી મેં દા'વતે ઈસ્લામી કી બાબુલ મદીના (કરાચી) કી મજલિસે મુશા-વરત ને આલમી મ-દની મર્કઝ ફેઝાને મદીના (બાબુલ મદીના કરાચી) મેં ઈજતિમાએ ઝિકો ના'ત કા એહતિમામ ક્રિયા જિસ મેં હઝારોં ઈસ્લામી ભાઈયોં ને શિર્કત કી. ઈજતિમાએ ઝિકો ના'ત કા આગાઝ તિલાવતે કુરઆને હકીમ સે હુવા, ફિર સરકારે મદીના, સુરૂરે કલબો સીના صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ કી બારગાહ મેં ગુલહાએ અકીદત ના'ત શરીફ કી સૂરત મેં પેશ ક્રિયે ગએ. ઈસ કે બાદ શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત سَلَّوْا عَلَيَّ الْعَالِيَةِ نَعَمْ بِرَكَاتِهِمْ الْعَالِيَةِ ને ઈસ મૌકઅ પર મ-દની મુઝા-કરે મેં ઈસ્લામી ભાઈયોં કે સુવાલાત કે જવાબાત દિયે. ફિર અમીરે અહલે સુન્નત سَلَّوْا عَلَيَّ الْعَالِيَةِ نَعَمْ بِرَكَاتِهِمْ الْعَالِيَةِ કા લિખા હુવા મન્જૂમ દુઆઈય્યા સેહરા શરીફ પઢા ગયા ઓર સલાતો સલામ પર ઈસ ઈજતિમાએ ઝિકો ના'ત કા ઈખ્તિમામ હુવા.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

છૂહારે ક્યું નહીં બાંટે ?

અમીરે અહલે સુન્નત **مَا دَامَتْ بَرَكَاتُهُمْ اَللّٰهِ** ને કુછ ચૂં ઇશાદ ફરમાયા : મુજ સે ઇસરાર ક્રિયા ગયા કે ઇજતિમાએ ઝિકો ના'ત કે શુ-રકા મેં કોઈ ચીઝ તક્સીમ કી જાએ, ક્રિસી ને યેહ મશવરા ભી દિયા કે ચલ મદીના કે 7 હુરૂફ કી નિસ્બત સે સાત સાત છૂહારોં પર મુશ્તમિલ પેકિટ તક્સીમ કર દિયે જાએ, ઇસ કે નુમૂને (સેમ્પલ, sample) ભી આ ગએ થે મગર મેં ને મન્અ કર દિયા ઇસ લિયે નહીં કે રકમ બહુત ખર્ચ હોતી બલકે યેહ સોચ કર કે યેહ છૂહારે હમ બાંટેંગે કિસ જગહ ? અગર મસ્જિદ મેં બાંટતે હેં તો રશ કી વજહ સે મસ્જિદ મેં શોરો ગુલ હોગા જો એહતિરામે મસ્જિદ કે મુનાફી હૈ ઓર અગર બાહર બાંટતે હેં તો રાસ્તે બન્દ હો જાને કા ખદશા હૈ જિસ સે ગુઝરને વાલોં કી હક ત-લફી હોગી. ફિર અવામ કે જમ્મે ગફીર કો કાબૂ કરના બેહદ મુશ્કિલ હૈ, ઇના ઝપટી મેં ઝોરઆવર તો શાયદ કઈ કઈ પેકિટ લે ઉડે મગર જો બેચારા કમઝોર હોગા હુજૂમ મેં પિસ કર રહ જાએગા, લિહાઝા સમઝ નહીં પડતી થી કે કહાં બાંટે ? ચુનાચ્યે તૈ હુવા કે છૂહારે નહીં બાંટે જાએંગે.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدًا

ગોસે આ'ઝમ રઝી અલ્લે એને ઓર આ'લા હઝરત

કી તશરીફ આ-વરી

એક ઇસ્લામી ભાઈ કા બયાન હૈ કે ઇજતિમાએ ઝિકો ના'ત કે

આખિરી લમહાત મેં જબ મન્ય પર શહજાદએ અત્તાર **مَدَّ ظُنُّهُ الْعَالِي** और अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي** तशरीफ़ करमा थे और अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي** का तहरीर कर्दा मन्जूम हुआ। यहाँ से उतरा पढा जा रहा था. (जिस के अशआर सफ़हा 69 पर पेश किये गये हैं.) उन ईस्लामी भाई का कहना है के इस दौरान मेरी आंख लग गयी, क्या देखता हूँ के दो बुजुर्ग तशरीफ़ लाये, मुझे बताया गया के उन में अके हुजूर सय्यिदुना गौसे आ'जम **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** और दूसरे आ'ला उजरत ईमाम अहमद रजा **بِأَنَّ عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ** हैं. फिर दोनों बुजुर्गों ने अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي** और शहज्जादए अत्तार **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي** के गले में छार पहनाये.

ઈન કી શાદી ખાના આબાદી હો રબ્બે મુસ્તફા

અઝ પએ ગૌસુલ વરા બહરે ઈમામ અહમદ રજા

(અરમુગાને મદીના)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

રસ્મે રુપ્સતી

અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي** ને પહલે હી સે તાકીદ કર દી થી કે કિસી સૂરત મેં કોઈ ગૈર શર-ઈ રસ્મ યા મુઆ-મલા ન હોને પાએ બલકે વક્તે રુપ્સતી ભી તમામ મુઆ-મલાત ઐન શરીઅત

के दाअेरे में रहते हुअे डोने याडिअें. **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ** आप की ँस
 ष्वाडिश को अ-मली जमा पहनाया गया और आभिर तक डर डर
 मुआ-मला अैन शरीअत के मुताबिक रखने की डी कोशिश की गड. डता के
 रुषसती के वक्त जो षवातीन दुडुन को ँडोडने के लिये ररुम के तौर पर आती
 हें ँस से पेशगी मन्अ कर डिया गया के सिई दुडुन का सगा त्माड शर-ड
 पर्डे के साथ दुडुन को ले आअे. ँस शाडी में अभीरे अडले सुन्नत
اَللّٰهُمَّ بَرِّكَ لَهُمُ الْعَالِيَه के धर वालों की तरक से त्मी ँस्लामी
 डडनों के लिये कोड तकरीड नडीं रखी गड थी.

मेरी जिस कडर हें डडनें सत्मी काश डुर्कअ पहनें

डो करम शडे जमाना म-दनी मडीने वाले

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّد

DA JMAAT NAMA E

शडे जिङाङ की सुडु शडजादअे अत्तार डाज्ज अडमद उडैद रजा
صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ ने आलमी म-दनी मर्कज डैजाने मडीना में डरुडे
 मा'मूल नमाडे इज्ज पढाड. ँस तरड उन्डों ने अपने वालिद या'नी
 अभीरे अडले सुन्नत **اَللّٰهُمَّ بَرِّكَ لَهُمُ الْعَالِيَه** की रिवायत को डर करार
 रषा के उन्डों ने त्मी शडे जिङाङ की सुडु मस्जिदे नूर (कागजी बाजार

બાબુલ મદીના કરાચી) મેં નમાઝે ફજ કી હરબે મા'મૂલ ઇમામત ફરમાઈ થી.

નમાઝોં મેં મુઝે હરગિઝ ન હો સુસ્તી કભી આકા

પહૂં પાંચોં નમાઝેં બા જમાઅત યા રસૂલલ્લાહ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

ધૂમધામ સે વલીમા કરને કા મુતા-લબા

અમીરે અહલે સુન્નત صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ને મ-દની મુઝા-કરે કે દૌરાન કુછ યૂં ઈશાદિ ફરમાયા : ધૂમધામ સે વલીમા કા ભી બહુત ઈસરાર રહા. કિસી ને ઓફર ભી કી કે 200 દેગેં બિલા ઉજરત પકા દેંગે, બસ દો લાખ રુપૈ કા સામાન આએગા. મેં ને કહા : દો લાખ રુપૈ તો મેરે પાસ નહીં હેં, મગર મેરે લિયે દો લાખ રુપૈ જમ્મ કરના મુશ્કિલ ભી નહીં હે, બસ યેહી હોગા કે જિસ સે કહૂંગા ઉસ કે દિલ મેં મેરી જો ઈઝ્ઝત હોગી વોહ ખત્મ હો જાએગી, દો ચાર સેઠોં કો ફોન કર દૂંગા, થોડી સી ખુશામદ કરના પડેગી જો કે મેરે મિઝાજ મેં નહીં હે, 200 કી જગહ 1200 દેગેં હો જાએગી, યૂં મેરે બેટે કા વલીમા તો ધૂમધામ સે હોગા ઔર આપ લોગ ભી ખુશ હો જાએંગે મગર મુઝે ઈસ કે લિયે અપની ખુદારી કા સૌદા કરના પડેગા. ફિર આપ ને બતૌરે તરગીબ એક વાકિઆ ભી સુનાયા :

अेक पीर साहिब के हां लंगर खाना खल रहा था. अेक साहिबे सरवत मुरीद पैसे देने की तरकीब कर रहा था. लंगर खाने के मुन्तजिम ने अर्ज की : हुजूर ! अब महंगाई बढ़ गई है, बहुत दिक्कत हो रही है, अगर आप इस लंगर खाने का खर्चा देने वाले मुरीद को इशारा कर देंगे के वो ल रकम दुगनी कर दे तो अपना लंगर खाना जरा आसानी से खलेगा. पीर साहिब इस पर राजी हो गये और उस मुरीद को इरमाया के अल्लाह तआला ने तुझे बहुत दिया है, तुम माहाना खन्दा दुगना कर दो. उस मुरीद ने सआदत मन्दी से खवाब दिया : मुर्शिद आप का हुकम सर आंखों पर. कुछ अर्से के बाद लंगर खाने के मुन्तजिम ने पूछा हुजूर ! आप ने रकम में इजाड़े के लिये कहा या नहीं ? पीर साहिब ने इरमाया के मैं ने उस से कहा था और उस ने दुगना भी कर दिया है मगर इर्क खेह है के पहले बड़ी अकीदत से आ कर पेश करता था, अब खुद नहीं आता बिजवा देता है.

(इर अभीरे अहले सुन्नत $\text{دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ}$ ने इरमाया) $\text{اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ}$ मेरा बेटा (या'नी हाज्ज अहमद उबैद रजा अतारी $\text{سَلَّمَ الْعَيْنِي}$) खुद वलीमे की सुन्नत अदा करेगा. धूमधाम से न सही मगर वलीमा होगा.

$\text{صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ}$

દા'વતે વલીમા

શહજાદએ અત્તાર **مَدَّطُلُّهُ الْعَالِي** ને અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي** કી હસ્બે ખ્વાહિશ ઈન્તિહાઈ સા-દગી સે દા'વતે વલીમા કા એહતિમામ ફરમાયા જિસ મેં સિર્ફ દા'વતે ઈસ્લામી કી મર્કઝી મજલિસે શૂરા કે તમામ અરાકીન ઓર તીન યા ચાર દૂસરે ઈસ્લામી ભાઈયોં કો મદ-ઉ કિયા લેકિન ખાને કે વક્ત ઘર કે બાહર જમ્મ હોને વાલે દીગર અકીદત મન્દ ઈસ્લામી ભાઈયોં કો ભી અન્દર બુલવા લિયા ગયા. **أَلْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ** અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي** ભી વલીમે મેં શરીક થે. દા'વતે વલીમા મેં દાલ ઓર ચાવલ પેશ કિયે ગએ. અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي** ને બતાયા કે “ખાના ઘર મેં પકાયા ગયા હૈ, દાલ પાની મેં પકાઈ ગઈ ઓર ઈસ મેં તેલ કા એક કતરા ભી નહીં ડાલા ગયા.” મગર ખાને વાલોં કા કહના હૈ કે દાલ ચાવલ હૈરત અંગેઝ તૌર પર ઈન્તિહાઈ લઝીઝ થે.

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

શહજાદએ અત્તાર કો મિલને વાલે તહાઈફ

અમીરે અહલે સુન્નત **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِي** કી તરફ સે દી ગઈ મ-દની સોચ કે બાઈસ દુન્યા ભર સે ઈસ્લામી ભાઈયોં ઓર ઈસ્લામી બહનોં ને દુન્યવી તહાઈફ કે બજાએ બહુત સે નેક આ'માલ મ-સલન હઝારોં કુરઆને પાક, દુરૂદે પાક ઓર મુપ્તલિફ અઝ્કાર, મ-દની

ईन्आमात और कई ईस्लामी त्वाईयों ने म-दनी काइलियों में सफर करने और दीगर अखी अखी निखतों के सवाब के तोडके पेश किये.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

अेक लाभ रुपैे का येक लौटा दिया

अभीरे अडले सुन्नत صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ का मुकदस धराना हुन्यवी माल से किस कदर अपना दामन बयाता है ? ईस का अन्दाजा ईस बात से लगाईये के माली तोडके देने से मन्अ करने के बा वुजूद जब अेक ईस्लामी त्वाई ने अभीरे अडले सुन्नत صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ की बारगाड में शहजादअे हुजूर مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالَمِي के लिये 100000/- (अेक लाभ रुपैे) का येक बतौरे तोडका त्मिजवाया तो अभीरे अडले सुन्नत صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ने शुक्रिया के साथ वापस करते हुअे तडरीरी पैगाम त्मेजा के बराअे करम ! दोबारा ईस के लिये ईसरार न फरमाअे. बा'द अजां येक देने वाले ईस्लामी त्वाई के घर वालों की तरफ से अभीरे अडले सुन्नत صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ के घर उन की बडी लमशीरा के पास अेक लाभ रुपैे नकद पडोंयाने की कोशिश की गई मगर वहां त्मी उन्हें मायूसी हुई कयूके उन्हें ने त्मी रकम लेने से मा'जिरत कर ली और शुक्रिया के साथ पैसे वापस कर दिये.

अभीरे अडले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** की डमशीरा का कडना है के जब मैं ने डलख अडमद उडैद रजा को 100000/- रुपै के तोडके के बारे में डताया तो शडजादे ने डताया : “येक की सौगात सड से डडले मेरे पास डी डडोंयी थी डगर मेरे डंकार करने डर डी उन्डों ने डापडान, डिर आप की डिदडत में डेश करने की कोशिश की.”

न मुज को आजमा दुन्या का मालो जर अता कर के
अता कर अपना गम और यशमे गिया या रसूलव्लाड

(अर मुगाने मदीना)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

पसन्द का तोडका

निगराने शूरा **سَلَّمَ رَبُّ الْوَرَى** ने डताया के मुजे कड मुडय्यर डररात के डोन आडे डिन का करोडों का कारोडार है के डम शडजादडे डुजूर **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** की डिदडत में उन की पसन्द का तोडका डेश करना याडते हैं, मेडरडानी डरमा कर शडजादडे डुजूर **مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي** से मा'लूम कर के डता डें. जब मैं ने शडजादडे अतार **مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي** की डारगाड में तोडके से मु-तअद्लिक अरु की तो उन्डों ने मन्अ करते डुडे डरमाया के अगर वोड मुजे कुड डेना डी याडते हैं तो म-दनी डंआमात डर अडल और म-दनी काडिले में सडर कर के उस के सवाड का तोडका डे डें.

દુન્યા પરસ્ત ઝર પે મરે ગુલ પે અન્દલીબ
 અપના તો ઇન્તિખાબ મદીને કા હૈ બબૂલ
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ
ગિન્તો અતાર કા જહેઝ

અમીરે અહલે સુન્નત صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ને અપની ઇકલૌતી બેટી કી શાદી ભી સા-દગી કો મલ્હૂઝ રખતે હુએ ઐન સુન્નત કે મુતાબિક કરને કી કોશિશ ફરમાઈ થી. અમીરે અહલે સુન્નત صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ ને એક મ-દની મુઝા-કરે મેં કુછ યૂં ઇશદિ ફરમાયા : મેં ને પૂરી કોશિશ કી કે હઝરતે સય્યિ-દતુના ફાતિમા رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا કો મેરે આકા صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ને જો જો ઇનાયત ફરમાયા ઉસ કી પૈરવી કી જાએ,

વાસિતે જિન કે બને દોનોં જહાં

ઉન કે ઘર થીં સીધી સાધી શાદિયાં

ઉસ જહેઝે પાક પર લાખોં સલામ

સાહિબે લોલાક પર લાખોં સલામ

(દીવાને સાલિક)

મ-સલન મશકીઝા, ગેહૂં પીસને વાલી હાથ કી ચક્કી, નુકરઈ (યા'ની ચાંદી કે) કંગન પેશ કિયે, ઇસી તરહ કી દીગર ચીઝેં કિતાબોં સે દેખ કર જો જો મુયસ્સર આયા : ચટાઈ, મિટ્ટી કે બરતન ઔર ખજૂર કી છાલ ભરા ચમડે કા તક્યા વગૈરા, الْحَمْدُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ જહેઝ મેં પેશ કરને કી કોશિશ કી¹

1 : સામાને જહેઝ કી તસ્વીર આખિરી સફહે પર મુલા-હઝા ફરમાઈયે.

और रुफसत करते वक्त जिस तरफ सरकार وَسَلَّم وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने
 भातूने जन्नत फ़ाति-मतुज़्ज़लररर रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا पर शक़कतें फ़रमाई
 थीं¹, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ, उन सुन्नतों पर ल्मी अमल करने की कोशिश की थी.

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

1 : ईमाम जज़री शाक़े ई عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने नकल फ़रमाते हैं के ज़ब हुज़ूर
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهَا وَرَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا फ़ाति-मतुज़्ज़लरररर का अक़दे
 निकाल डररते अमीरुल मुअमिनीन अलिय्युल मुत्तज़ा क़रुम से किया तो
 आप रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا घर में तशरीफ़ लाओ और डररते भातूने जन्नत रَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا से
 फ़रमाया : पानी लाओ, वोड पियाले में पानी लाई आप ने उस में से पानी ले कर उस में
 कुल्ली की फ़िर फ़रमाया : आगे आओ, ज़ब वोड आगे आई तो उन के सीने के दरमियान
 और सर पर पानी छिडका और दुआ की : “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَدُرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ”
 या’नी “ईलाही ! में ईस को और ईस की औलाद को शैतान मरदूद से तेरी पनाड में देता
 हूँ.” फ़िर हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : पुशत केरो ज़ब उछों ने पुशत केरी तो
 उन के दोनों कन्धों के दरमियान पानी छिडका और दुआ की (या’नी मजक़ूरा बावा दुआ ज़े
 तरजमे के साथ गुज़री) फ़िर हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ने फ़रमाया : पानी लाओ, डररते अली
 صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ ने मुज ली
 से फ़रमाया है. युनाये में उठा और पानी का पियाला लर लाया. हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ने
 उस पियाले से पानी ले कर उस में कुल्ली की फ़िर फ़रमाया : आगे आओ (युनाये में आगे
 आया) तो आप ने मेरे सर और सामने के ज़िस्म पर पानी डाला फ़िर दुआ फ़रमाई :
 “اللَّهُمَّ إِنِّي أَعِيذُهَا بِكَ وَدُرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ” या’नी “ईलाही ! में ईस को और ईस की औलाद
 को शैतान मरदूद से तेरी पनाड में देता हूँ.” फ़िर फ़रमाया : पुशत केरो मैं ने पुशत केरी तो आप
 ने मेरे कन्धों के दरमियान पानी डाला और दुआ फ़रमाई (या’नी मजक़ूरा बावा दुआ ज़े तरजमे
 के साथ गुज़री) फ़िर हुज़ूर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ ने (डररते अली क़रुम से)
 फ़रमाया के तुम अल्लाड तआला के नाम और अ-र-कत से आपनी औज़ा के पास ज़ाओ.

(المعجم الكبير للظهيراني، الحديث ١٠٢١، ج ٢٢، ص ٤٠٩ ماخوذاً والحسن الحصين، ما يتعلق بامور الزواج، ص ٧٦)

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल ईल्मिथ्या (दा’वते ईस्लामी)

अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ كِي जनिअ से

“जिन्ते अतार और दामादे अतार” के लिये

धस्लाही म-दनी इलां का गुलदस्ता

“दामादे अतार” की जिदमत में धर यलाने

के सिद्विले में 12 म-दनी इल

﴿1﴾ डुकूके जौजेन, डुर्भते मुसा-डरत, नान नईके का बयान, जिहार का बयान वगैरा (बहारे शरीअत, डिस्सा: 7) का मुता-लआ इरमा लीजिये.

﴿2﴾ वालिदैन और धर के दीगर अइराद की कमजोरियां और कोताहियां अपनी जौजा को बता कर गीअत और आबडू रेजी की आइत में मुअला न हों.

﴿3﴾ ईसी तरह की बातें जौजा भी अगर करे तो उस से कहें صَلَّوْا عَلَى الْحَبِيب . और उसे औसी बातें करने से रोक दें वरना गीअत सुनने के गुनाह में गिरिफ्तार होंगे.

﴿4﴾ “डम तो बुरा किसी (मुसल्मान) का देभें सुनें न बोवें” येड उसूल अगर अपना लेंगे तो إِنَّ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ मदीना ही मदीना.

﴿5﴾ औरत को राज की बात न बताओं.

बशर राजे हिली कड कर जलीलो प्वार डोता है

निकल जाती है जब पुरभू तो गुल बेकार डोता है

«6» वलिटैन का हर डाल में अहतिराम करें उन के डुकूक से आप किसी तरड भी सुबुक ढोश नहीं डो सकते.

«7» औरत टेडी पस्वी से निकली है उस को डिकमते अ-मली से डी यलाने में काम्याबी है. बात बात पर गुस्सा या डंट डपट करने से बिदक जाने का अन्देशा है.

«8» शोडर डडिम डोता है और बीवी मडूकूम. विलडज डियाडड Free न डों वरना रो'अ अत्म डो जाने की सूरत में “डडिमियत” (की डडक) डअेअ डो सकती है.

«9» डोने पडाने का काम डौज डी के डिम्ले लगडौं. (उस के साथ) बिलड डरुरत डिया जाने वडलड तडवुन डो सकता है उसे सुस्त बना डे.

«10» डिडडियों और डरडडडों से (बिलड डरुरे सडीड) डडंकनड शु-रडू का काम नहीं. आप भी अहतियात करें और अपनी डौज पर भी सड्ती से पडबन्डी डलें डरुरतन डडंकनड पडे तो येड अहतियात डडर डल डरुर रडें के (नड डडूरडों और) पडोसियों के डरों में नडर न पडे.

«11» म-डनी डन्डडडडड पर आप भी अडल करें और बिनते अतार को सड्ती से अडल करवडौं.

﴿12﴾ भिन्ते अत्तार मद्ज्ज बशर है, ग-लतियों का हर ईम्कान मौजूद है अगर ईस का तजकिरा आप ने अपने वालिदैन या अइरादे पाना से किया तो गीबत के गुनाह के साथ साथ “दा’वते ईस्लामी” को भी नुकसान पड़ोय सकता है. आप अइसन तरीके से ईस्लाह की सभ्युय इरमाओं. नाकामी की सूरत में ईस्लाह करवाने की निय्यत से सिई मुज से रुजूअ कीजिये. (13 मुहर्मुल इराम 1418 सि.हि.)

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدًا

घर को भुशियों का गहवारा बनाने और आपिरत संवारने के लिये “अत्तार” (كَامَاتُ بَرَكَاتِهِمُ الْعَالِيَةِ) की तरई से “भिन्ते अत्तार” के लिये 12 म-दनी इल

﴿1﴾ शोहर की तरई से मिलने वाला हर हुकम जो भिलाई शर-अ न हो, बज्ज लाना जरूरी है.

﴿2﴾ अपने शोहर और सास का ખडे हो कर ईस्तिकबाल कीजिये और ખडे हो कर ही रुप्सत भी कीजिये.

﴿3﴾ दिन में कम अज कम अेक बार (मुम्किन हो तो) सास की दस्त बोसी कीजिये.

﴿4﴾ अपनी सास और सुसर का वालिदैन की तरह ईकराम कीजिये. उन की आवाज के सामने अपनी आवाज पस्त रभिये. उन के और अपने शोहर के सामने “ज्ज जनाब” से बात कीजिये.

﴿5﴾ शोहर जइरतन सजा देने का मजाज है.¹ औसा छो तो सभ्रो तहम्मूल का मुजा-हरा कीजिये, गुस्सा कर के या जभान दराजी कर के घर से इठ कर आ जाने की सूरत में आप पर “मयके” के दरवाजे बन्द हैं.

﴿6﴾ हां बिगैर इठे शोहर की ईजाजत की सूरत में जब याहें मयके आ सकती हैं.

﴿7﴾ अपने मयके की कोताहियां शोहर को बता कर गीबत के गुनाहे कबीरा में न फुद मुब्तला हों न अपने शोहर को “सुनने” के गुनाहे कबीरा में मुलव्वस करें.

﴿8﴾ अपनी “बे अ-मली” या “ला एल्मी” को हांपने के लिये एस तरह कइ देना के “मुजे तो वालिदैन ने येह नही सिपाया” सप्त हमाकत है.

﴿9﴾ बहारे शरीअत हिस्सा 7 से “नान नइका का बयान”, “जौ जैन के हुकूक” वगैरा का मुता-लआ कर लीजिये.

﴿10﴾ अपने लिये किसी किस्म का “सुवाल” अपने शोहर से कर के उन पर भोज मत बनना. हां अगर वोह मुकरर कर्दा हुकूक अदा न करें तो मांग सकती हैं.

1 : मुहसिरे शहीर हकीमुल उम्मत हजरते मुहती अहमद यार भान عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْمَنَّان सू-रतुन्निसाअ की आयत नम्बर 34 के तहत लिखते हैं : रब तआला ने यहां उन की (या'नी बीवियों की) ईस्वाह की तीन सूरतें बयान इरमाई : (1) नसीहत करना (2) बायकाट करना (3) मारना. (मजीद लिखते हैं) ना इरमानी पर भावन्द मार सकता है मगर ईस्वाह की मार मारे न के ईजा (या'नी तकवीह देने) की जैसे शागिर्द को उस्ताद या औलाद को मां बाप ईस्वाह के लिये मारते हैं. बिवा कूसूर बीवी को मारना सप्त मम्मूअ है जिस की पकड रब (كُرْهُنَّ) के हां जइर होगी. (तहसीरे नईमी, जि. 5, स. 61) बहारे शरीअत में है : “बीवी नमाज न पढे तो शोहर उस को मार सकता है इसी तरह तर्के जीनत पर भी मार सकता है और (बिवा जइरत) घर से बाहर निकल जाने पर भी मार सकता है.” (बहारे शरीअत, हिस्सा : 16, स. 299)

«11» मेहमान की बिदमत सआदत समज कर करना, उस के अपराजत के मुआ-मले में शोहर पर बेजा भोज मत डालना. अपने वालिद (या'नी सगे मदीना) से तलब कर लेना. **اِنَّ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ** मायूसी नहीं होगी और अगर वोह जुशदिली से रिजामन्द हों तो उन की सआदत मन्दी होगी.

«12» शोहर की एजाजत के बिगैर हरगिज घर से न निकलें. (ईस्लामी बहनों को याहें तो तोहफे में इस तहरीर की फोटो कोपी दे सकती हैं)

(3 स-इरुल मुजफ्फर 1418 सि.हि.)

**शाही के मौकअ पर अमीरे अहले सुन्नत مَدَّطُّهُ الْعَالِي
की तरफ से दूल्हा को दिया जाने वाला मक्तूब¹**

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ सगे मदीना मुहम्मद ईल्यास अत्तार कादिरी र-जवी غَفَىٰ عَنَّا की जानिब से गुलामे मुस्तफ़ा, गदाअे गौसुल वरा, साईले बारगाडे एमाम अहमद रजा की बिदमते पुर मुसरत में मदीनअे पाक شَرَفًا وَتَعْظِيمًا की रंगीन फ़ाओं और मक्कअे मुकर्रमा شَرَفًا وَتَعْظِيمًا की मुश्कबार हवाओं की ब-र-कतों, अ-ज-मतों, रिफ़अतों, सआदतों, शराफ़तों और करामतों से मालामाल जुश गवार व जुशबूदार सलाम :

1. इस मक्तूब में अइरतन तरमीम और रिवायात की तपरीज की गई है... (इल्मिया)

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

ઝાદહા અલ્લાહ શરફાવુત્તેઘિમા અપ કો મદીનએ મુનવ્વરહ શરફાવુત્તેઘિમા અપ કો સદા બહાર ફૂલોં ઓર નૂરબાર કાંટોં કી તરહ લહ-લહાતા, મુસ્કુરાતા ઓર જગ-મગાતા રખે. અલ્લાહ અપ કો ઐસી મ-દની બહારેં નસીબ ફરમાએ કે ખજાં આપ કી તરફ આંખ ઉઠા કર ભી ન દેખે. અલ્લાહ તઆલા આપ કો બાર બાર હજ કી પુરકેફ બહારેં ઓર મદીનએ પાક શરફાવુત્તેઘિમા અપ કો પાકીઝા નઝારે દિખાએ. અલ્લાહ અપ કો હમેશા હમેશા કે લિયે રાઝી હો, આપ કો જન્નતુલ બકીઅ મેં મદફન ઓર જન્નતુલ ફિરદૌસ મેં અપને મ-દની મહબૂબ વસી અલ્લાહ તઆલા કા પડોસ અતા કરે, આપ કા સીના મદીના હો ઓર મદીનએ પાક શરફાવુત્તેઘિમા અપ કો બબૂલ કે તુફેલ યેહ તમામ દુઆઓં મુઝ પાપી વ બદકાર કે હક મેં ભી કબૂલ હોં.

أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

આપ કી દુન્યા વ આખિરત કી બેહતરી કે જઝબે કે તહ્ત મીઠે મીઠે આકા વસી અલ્લાહ તઆલા કા પડોસ અતા કરે, આપ કા સીના મદીના હો કરને કી સઆદત હાસિલ કરતા હું.

મદીના 1 : તુમ જો કુદુ ભી અલ્લાહ અપ કો રિઝા યાહતે હુએ ખર્ય કરોગે તુમહેં ઉસ કા સવાબ દિયા જાએગા યહાં તક કે જો કુદુ અપની બીવી

के मुंह में डालोगे उस का भी सवाब दिया जायेगा.”

(صحیح البخاری، ج ۴، ص ۱۲، حدیث ۵۶۶۸)

मदीना 2 : जो पाक दामनी यादते हुअे अपने आप पर कुछ भर्य करे तो येह उस के लिये सढका है और जो अपनी बीवी, बर्य्यों और घर वालों पर भर्य करे तो येह भी स-ढका है.” (مجمع الزوائد، ج ۳، ص ۳۰۲، حدیث ۴۶۶۶)

मदीना 3 : आदमी अगर अपनी औंजा को पानी भी पिलाये तो उसे धस का अज मिलता है. (مسند امام احمد، مسند الشاميين، ج ۶، ص ۸۵، حدیث ۱۷۱۵۵)

आजकल बढ किस्मती से सिर्फ बेटे ही की अक्सर लोग तमन्ना करते हैं अगर बेटी पैदा हो जाये तो बुरा मानते हैं, बेटी की इजीलत पढिये और जूमिये :

मदीना 4 : जिस की लडकी हो और वोह उसे जिन्दा दफन न करे और उस की तौहीन न करे और बेटों को उस पर तरजुह न दे तो अल्लाह غَزَّ وَجَلَّ उस को जन्नत में दाभिल इरमायेगा.

(ابوداؤد، ج ۴، ص ۴۳۵، حدیث ۵۱۴۶)

मदीना 5 : जिस को अल्लाह غَزَّ وَجَلَّ ने लडकियां दी हों अगर वोह धन के साथ अहसान करे तो वोह (लडकियां) उस के लिये जहन्नम की आग से रोक हो जायेगी.

(مشکوٰة، ج ۲، ص ۲۱۰، حدیث ۴۹۴۹)

मदीना 6 : जिस किसी की तीन बेटियां या तीन बहनें हों और वोह उन के साथ हुस्ने सुलूक करे तो जन्नत में दाभिल होगा.

(جامع الترمذی، ج ۳، ص ۳۶۶، حدیث ۱۹۱۹)

बीवी की बह अप्लाकी पर सल्ला कीजिये और अज कमायये !

उजरते सय्यिदुना अबुल हसन बिरकानी سُرَّةُ التُّورَانِي का शोहरा सुन कर ओक मो'तकिद सफ़र कर के जियारत के लिये आप के घर लाजिर हुवा. दस्तक दी और आमद का मकसद बताया. आप की जौज ने बताया वोह जंगल में लकड़ियां लेने गये हैं. और फिर वोह उजरत की बुराईयां बयान करने लगी. वोह मो'तकिद परेशान हो कर जंगल की तरफ़ गया, देखा तो दूर से ओक शप्स आ रहा है और उस के पीछे ओक शेर खला आ रहा है जिस की पीठ पर लकड़ियों का गड्ढा लदा हुआ है. आप رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ने दूर ही से फ़रमाया : “मैं ही अबुल हसन बिरकानी हूँ, अगर मैं अपनी बह भिजाज बीवी का भोज बरदाश्त न करता तो क्या शेर मेरा भोज उठा लेता ?”

(تذكرة الاولياء، ص 174)

भबरदार ! अहलो ईयाल को हस्बे ज़रूरत अहकामे शरीअत सिभाना ज़रूरी है. ईस का ओक जरीआ दा'वते ईस्लामी का “म-दनी येनल” भी है, T.V. सिर्फ़ ईसी गरज से लिया जाओ और ईस में तमाम येनल Lock कर के फ़कत म-दनी येनल ही बाकी रखा जाओ. अगर भुदा नपवास्ता उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ उलूमे हुन्यवी ही सिभाओ, नीज गुनाहों से बाज रहने के बज्जओ भुद ही गुनाह करने

के आलात म-सलन झिल्में और डिरामे वगैरा देफने के लिये **T.V.** और **V.C.R.** वगैरा का घर में अेलतिमाम किया और शैतान के इस इरेब में मुब्तला हो गअे के अगर घर में **T.V.** वगैरा का अेलतिमाम नहीं करोगे तो तुम्हारे अख्ये दूसरों के घर जा कर झिल्में देभेंगे, नीज अपने अहलो एयाल को सूदो रिशवत या हराम कमाई बिलाई तो आबिरत पराब होने का अन्देशा है. अेक एभ्रतनाक रिवायत पढिये और भौंके फुदा वन्दी से लरजिये.

अरोजे कियामत अेक शप्स बारगाडे फुदा वन्दी **كُلُّ وَرَعٍ** में डालिर किया जाअेगा, उस के बीवी अख्ये इरियाद करेंगे “या अद्लाड ! इस ने डमें दीन के अहकाम नहीं सिपाअे और येड डमें हराम रोजी बिलाता था, लेकिन डम ला एल्म थे. विलाजा उस (शप्स) को हराम रोजी के सबब इस कदर पीटा जाअेगा के उस की भाल तो भाल गोशत भी उधड जाअेगा, फिर उस को भीजान (या'नी तराजू) पर लाया जाअेगा, फिरिश्ते उस की पहाड के अराबर **नेकियां** लाअेंगे तो अहलो एयाल में से अेक शप्स उस की **नेकियों** में से ले लेगा. दूसरा अडेगा वोड भी उस की **नेकियों** से अपनी कमी पूरी करेगा. इस तरड उस की सारी **नेकियां** उस के घर वाले ले लेंगे. अब वोड अपने बाल अख्यों की तरङ्ग रुष कर के कहेगा “अइसोस ! अब मेरी गरदन पर सिई उन गुनाहों का बोज रड गया है जो मैं ने तुम लोगों की भातिर किये थे.” फिरिश्ते अे'लान

करेंगे “येह वोह शप्स है जिस की सारी नेकियां उस के बाल बख्ये ले गअे और येह उन की वजह से जहन्नम में दाखिल हुवा.”

(فُرَّةُ الْعِيُونِ، الباب الثامن، في عقوبة قاتل..... الخ، ص ٤٠١)

यकीनन वोह शप्स अडा अद नसीअ है जे अपने बाल बख्यों की सुन्नत के मुताबिक तरबियत नहीं करता, अपनी बीवी को उत्तल मकदूर पढा वगैरा के अहकाम नहीं सिखाता. अडे अज फुद ईशन के सामान मुहय्या करता, मेकअप करवा कर बे पढा स्कूटर पर बिठाता, शोपिंग सेन्टरो की जीनत बनाता और मप्लूत तफ़रीह गाहों में फिरता फिरता है. याद रबिये जे लोग आ वुजूदे कुदरत अपनी औरतों और महारिम को बे पढगी से मन्अ न करें, वोह दय्यूस हें, रहमते आ-लमिय्यान صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का इरमाने ईब्रत निशान है, “ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَبَدًا الذُّيُوثُ وَالرَّجُلَةُ مِنَ النِّسَاءِ وَمُدْمُنُ الْخَمْرِ” “तीन या’नी (الْتَّرْعِيْبُ وَالتَّرْهِيْبُ، ج ٣، ص ٧٦، حديث ٨، دارالكتب العلميه بيروت) शप्स कभी जन्नत में दाखिल न होंगे दय्यूस और मदानी वजूअ बनाने वाली औरत और आदी शराबी.” हजरते अदलामा अलाउद्दीन उस्कई “ذِيُوْتٌ هُوَ مَنْ لَا يَغَارُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَوْ مَحْرَمِهِ” : “हैं इरमाते है: عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْقَوِي (الدَّرُّ الْمُخْتَارُ، ج ٦، ص ١١٣، دارالمعرفة بيروت) या’नी “दय्यूस” वोह शप्स होता है जे अपनी बीवी या किसी महरम पर गैरत न आअे.” मा’लूम हुवा के आ वुजूदे कुदरत अपनी जौज, मां, अहनों और जवान बेटियों वगैरा को गलियों, आजारों, शोपिंग सेन्टरो, मप्लूत तफ़रीह गाहों

में बे पर्दा घूमने फिराने, अजनबी पड़ोसियों, ना महरम रिश्तेदारों, गैर महरम मुलाजिमों, योकीदारों, द्राईवरों से बे तकल्लुफी और बे पर्दगी से मन्अ न करने वाले सप्त अहमक, बे हया, दय्यूस, जन्नत से महरूम और जहन्नम के हकदार हैं. अगर मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक मन्अ करता है और वोह नहीं मानती तो ईस सूरत में ईस पर न कोई एल्जाम और न वोह दय्यूस.

सास बहू का अगर भुदा न ज्वास्ता एप्तिवाइ हो ज़ाअे तो उस में एन्साइ का दामन हरगिज हाथ से न जाने देना, मां को हरगिज हरगिज मत ज़ाडना ईसी तरह सिर्फ मां की इरियाद सुन कर बीवी को भी मत मारना, सिर्फ और सिर्फ नरमी से काम लेना कहीं अैसा न हो के बाजी हाथ से ज़ाती रहे और रोने के दिन आओं. घर के जुम्ला अइराद को मेरा सलाम.

وَالسَّلَامُ مَعَ الْاَكْرَامِ

गमे मदीना व बकीअ व
मग़िरत व बिला हिसाब
जन्नतुल फिरदौस में सरकार
के पड़ोस का तलबगार



શાદી કે મોકઅ પર અમીરે અહલે સુન્નત مَدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي كِي तरफ से घरलामी બહનોં કો दिया जाने वाला मकतूब

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ સગે મદીના મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ર-ઝવી غَفَى عَنَّا કી જાનિબ સે દરબારે મદીના કી ભિકારન, કનીઝે ગૌસે ઝમન, ખાદિમએ શહ-શાહે સુલ મનન કી ખિદમત મેં મદીનાએ મુનવ્વરહ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا કી મુસ્કુરાતી હુઈ બહારોં ઓર મક્કએ મુકર્રમા شَرَفًا وَتَكْرِيمًا કે રંગીન રેગઝારોં ઓર વહાં કે ખૂબ સૂરત પહાડોં કી કિતારોં કી બ-ર-કતોં સે માલામાલ મહકા મહકા ખુશ ગવાર સલામ.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ،

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ

અલ્લાહ ઈઝ્જલ્ આપ કો દોનોં જહાં મેં શાદો આબાદ રખે, આપ કી ખુશિયોં કો તવીલ કરે, અલ્લાહ ઈઝ્જલ્ આપ કો મદીનાએ મુનવ્વરહ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا કે સદા બહાર ફૂલોં કી તરહ હમેશા મુસ્કુરાતી રખે. આપ કી બીમારિયાં, પરેશાનિયાં ઘરેલૂ ના ચાકિયાં, તંગદસ્તિયાં, કર્ઝ દારિયાં દૂર હોં. ઇઝદિવાજી ઝિન્દગી ખુશ ગવાર ગુઝરે. ઓલાદે સાલિહા સે ગોદ હરી રહે, બાર બાર હજ કા શરફ મિલે ઓર મીઠા મદીના ચૂમના નસીબ હો. اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ.

आप की दुन्या व आभिरत की बेहतरी के जजमे के तहत महुज हुसूले सवाब की जातिर अर्ज करता हूं के अपने शोहर की भिदमत में कोताही मत करना, इस जिम्न में भीठे भीठे आका
 صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के 6 पुशबूदार एशादात पेश करता हूं :

मदीना 1 : कसम है उस की जिस के कज्जअे कुदरत में मेरी जान है अगर कदम से सर तक शोहर के तमाम जिस्म में ज़भम हों जिन से पीप और कय लडू भडता हो फिर औरत उसे याटे तब भी हकके शोहर अदा न किया.

(مسند امام احمد، ج ٤، ص ٣١٨، حديث ١٢٦١٤)

मदीना 2 : हजरते सय्यिदुना बिलाल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की भिदमत में अर्ज की के दो औरतें दरवाजे पर येह सुवाल करने के लिये षडी हैं के अगर वोह अपने शोहर और अपने जेरे कफ़ालत यतीमों पर स-दका करें तो क्या उन की तरफ़ से स-दका अदा हो जाओगा ? तो रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने दरयाफ़्त फ़रमाया : “वोह औरतें कौन हैं ?” हजरते सय्यिदुना बिलाल رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ने अर्ज की : “अन्सार की एक औरत और जैनभ है.” तो रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया, “उन दोनों के लिये दुगना अज है, एक रिशतेदारी का और दूसरा स-दके का.”

(صحیح مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل النفقة... الخ، حديث ١٠٠٠، ص ٥٠١ ملخصاً)

मदीना : 3 शोहर ने बीवी को बुलाया उस ने ठन्कार कर दिया और उस (शोहर) ने गुस्से में रात गुजारी तो झिरिशते सुबह तक उस औरत पर ला'नत भेजते रहते हैं. (सहीح البخاری، ج ۲، ص ۳۸۸، حدیث ۳۲۳۷) और दूसरी रिवायत में है, (शोहर) जब तक उस से राजी न हो अद्लाह عُزَّ وَجَلَّ उस औरत से नाराज रहता है.

(کنز العمال، کتاب النکاح، قسم الاقوال، الحدیث ۴۴۹۹۸، ج ۱۶، ص ۱۶۰)

मदीना 4 : और (बीवी) बिगैर एजाजत उस (शोहर) के घर से न जाये अगर ऐसा किया तो जब तक तौबा न करे अद्लाह عُزَّ وَجَلَّ और झिरिशते उस पर ला'नत करते हैं. अर्ज की गई : अगर्थे शोहर जालिम हो ? इरमाया : अगर्थे जालिम हो. (مصنف ابن ابی شیبہ، ج ۳، ص ۳۹۷، حدیث ۳) बात बात पर रुठ कर मयके यली जाने वाली औरतों के लिये मुन्द-र-जअे आला हदीस में काई दर्स है.

मदीना 5 : तीन किस्म के लोगों की नमाज को अद्लाह तआला कबूल नहीं इरमाता अेक तो वोह औरत जो अपने शोहर की एजाजत के बिगैर घर से निकले, दूसरा भागा हुवा गुलाम और तीसरा वोह आदशाह जिस की रियाया उसे ना पसन्द करती हो.

(کنز العمال، ج ۱۶، ص ۲۵، حدیث ۴۳۹۱۹)

शायद किसी इस्लामी बहन को येह वस्वसा आये के क्या सिर्फ औरतों पर ही मर्दों के हुकूक हैं ? मर्दों पर भी औरतों के कोई

हुकूक हैं या नहीं? तो पढिये :

मदीना 6 : कोई मोमिन किसी मोमिना बीवी को दुश्मन न जाने अगर उस की किसी आदत से नाराज हो तो दूसरी भस्वत से राजी होगा.

(صحيح مسلم، ص 770، حديث 1469)

हकीमुल उम्मत हजरते मौलाना मुफ्ती अहमद यार पान लिखते हैं : **كَيْسِي نَفْسِي تَأْتِي مِ! مَكْسَدِي لِي بِتِي لِي رَحْمَةُ اللَّهِ الْمَنَّانِ** ये हूँ के बे औब बीवी मिलना ना मुम्किन है, लिहाजा अगर बीवी में दो अेक बुराईयां भी हों तो उसे बरदाश्त करो के कुछ भूषियां भी पाओगे. यहां साहिबे मिरकात ने इरमाया : जो बे औब साथी की तलाश में रहेगा वोह दुन्या में अकेला ही रह जायेगा, हम भुद हजारेका बुराईयों का सर यश्मा हैं, हर दोस्त अजीज की बुराईयों से दर गुजर करो, अश्याईयों पर नजर रफो, हां ! **إِشْرَافًا** की कोशिश करो, बे औब तो रसूलुल्लाह (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) हैं.

(मिरआतुल मनाज्जिद, जि. 5, स. 88)

जैल के पांय म-दनी कूल भी अपने दिल के म-दनी गुलदस्ते में सजा लीजिये, **إِنْ كُنَّا لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ** घर अमन का गडवारा बन जायेगा. **मदीना 7 :** सास और नन्द से किसी सूरत भी न बिगाडिये. उन की भूष भिदमत करती रहिये. अगर वोह तन्ज करें तो बामोश रहिये.

મદીના 8 : સાસ બિલફર્જ ઝિડકિયાં દે તો અપની માં કા તસવ્વુર કર લીજિયે કે વોહ ડાંટ રહી હૈં તો સબ્ર આસાન હો જાએગા. **اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ**

મદીના 9 : આપ ને કભી સાસ કે ગુસ્સા હો જાને પર અગર જવાબી ગુસ્સે કા મુઝા-હરા કિયા તો ફિર **“નિભાવ”** મુશ્કિલ તરીન હૈ.

મદીના 10 : સુસરાલ કી **“બદ સુલૂકી”** કી ફરિયાદ અપને મયકે મેં કરના સામને ચલ કર તબાહી કા ઇસ્તિકબાલ કરના હૈ. લિહાઝા સબ્ર કે સાથ સાથ ઇસ ઉસૂલ પર કારબન્દ રહિયે કે **“એક યુપ સો (100) કો હરાએ”** જવાબ મેં સિર્ફ દુઆએ ખૈર કીજિયે.

મદીના 11 : ઉમૂમન આજકલ સુસરાલ કી તરફ સે બહૂ પર **“જાદૂ કરતી હૈ”**, **“ અપને શોહર કો કાબૂ કર લિયા હૈ”** વગૈરા વગૈરા ઇલ્લામ લગાએ જાતે હૈં, ખુદા ન ખ્વાસ્તા આપ કે સાથ ઐસા મુઆ-મલા હો જાએ તો આપે સે બાહર હો જાને કે બજાએ હિકમતે અ-મલી ઔર ઇન્તિહાઈ નરમી સે કામ લીજિયે. અપના કમરા દિન કે વક્ત બન્દ ન રખિયે, ઘર કે દૂસરે અફરાદ કી મૌજૂ-દગી મેં અપને શોહર સે **“કાનાફૂસી”** ન કીજિયે. શોહર કી મૌજૂ-દગી મેં ભી ચાય વગૈરા અપની સાસ યા નન્દ કે સાથ બૈઠ કર હી પિયેં. ઉન કે સામને હરગિઝ મુંહ ન બિગારિયે, ગુસ્સા નિકાલને કે લિયે બરતન ઝોર સે ન

पछाडिये. बर्य्यों को ँस तरह मत डांटिये के उन को वस्वसा आअे के हमें सुनाती और कोसती है. धोने पकाने के काम में कुरती दिभाएये मतलब येह के नजसत को नजसत से (या'नी ँल्लाम को हंगामे से) पाक करने के बजअे (हिकमत व हुरने अज्लाक के) पानी ही से पाक किया जा सकता है. ँस तरह आप ﷺ अपने सुसराल की मन्जूरे नजर हो जाअेंगी और जिन्दगी भी भुश गवार हो जाअेंगी, सुसराल के हक में दुआ से गफलत न कीजिये के दुआ से बडे बडे मसाँल हल हो जाते हैं. सौभो सलात की पाबन्दी करती रहिये, शर-ँ पढ़े का अेहतिमाम कीजिये. याद रहे ! देवर व जेठ से भी पढ़ा है. अपने घर में “कैजाने सुन्नत” का दर्स जारी कीजिये. पामोशी की आदत डालिये के जियादा बोलने से जगडे का अन्देशा बढ जाता है. इेशन परस्ती के बजअे सुन्नतों का रास्ता ँप्तियार कीजिये के ँसी में लवाँ है. मुज गुनहगार को दुआअे गमे मदीना व बकीअ व मकिरत से नवाजती रहें. अगर आप को मेरा येह मक्तूब पसन्द आअे तो ँसे प्लास्टिक कोटिंग करवा लीजिये और भुदा न प्वास्ता कभी घरेलू जगडा हो तो ँस को पढ लीजिये. وَالسَّلَامُ مَعَ الْاَكْرَامِ

શાદી કે મોકઅ પર અમીરે અહલે સુન્નત کی مدظلہ العالی کی तरफ़ से धर के सर परस्त को दिया जाने वाला मक्तूब

અલ્લાહ عزَّ وَّجَلَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ બન્દએ આજિઓ લાચાર ઔર
મીઠે મીઠે મુસ્તફા صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم કા ગુલામે ગુનહગાર, ઉમ્મતે
નખી صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم કી ભલાઈ કા તલબ ગાર, જિન કે યહાં
શાદી હો રહી હૈ ઉન કે દુખૂલે જન્નત કા ખ્વાસ્ત-ગાર, સગે મદીનએ
પુર અન્વાર મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ર-ઝવી غَفَى عَنْهُ કી જાનિબ
સે શાદી કી મુસરતોં ઔર શાદ માનિયોં સે લબરેઝ, ઘરાને કે સર
પરસ્ત ઔર તમામ અહલે ખાના વ ખાનદાન કી ખિદમાત મેં ગુમ્બદે
ખઝરા કો ચૂમતા હુવા ઝૂમતા હુવા ખુશ ગવાર વ પુર બહાર સલામ
ઔર ઢેરોં મુબારક બાદ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَى كُلِّ حَالٍ
યા અલ્લાહ عزَّ وَّجَلَّ શાદી ખાના આબાદી ફરમા, યા
અલ્લાહ عزَّ وَّجَلَّ ! મદીનએ મુનવ્વરહ કે સદા બહાર ફૂલોં કી તરહ
દૂલહા દુલહન ઔર દોનોં ખાનદાનોં કો દોનોં જહાનોં મેં મુસ્કુરાતા
રખ, ઈન સબ કી, તમામ ઉમ્મત કી ઔર મુઝ પાપી વ બદકાર કી
મગિફરત ફરમા. اٰمِیْنِ بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

अइसोस ! सद अइसोस ! आजकल शादी जैसी मीठी मीठी
सुन्नत म्हादुत सारे गुनाहों में घिर चुकी है. म-सलन

मंगनी में लडका अपने हाथ से मंगेतर को अंगूठी पहनाता है डालांके येड डराम और जडन्नम में ले जाने वाला काम है. शादी में दूल्हा अपने हाथ मेहंदी से रंगता है येड भी डराम है, मर्दों और औरतों की मज्लूत दार'वतों का सिस्सिला डोता है या कहीं आर पार नजर आने वाला बराअे नाम पर्दा बीच में डाल दिया जाता है, इस पर मज्रीद तुरा येड के औरतों में गैर मर्द घुस कर खाना बांटते और खूब वीरियो डिल्में बनाते हैं.

तौबा ! तौबा ! आजकल शादियों में खानदान की जवान लडकियां खूब नायती गाती हैं. इस दौरान मर्द भी बिला तकल्लुक अन्दर आते जाते हैं मर्द और औरतें ज़ुलम कर बद निगाही करते हैं न खौफ़े खुदा न शर्म मुस्तफ़ा وَسَلَّم. صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. डिल्में डिरामे, नाय गाने, डोलकी और डंडिया रास के डंकशन्ज देखने वाले येड बात याद रभें के येड डराम काम हैं इन का अजाब बरदाश्त नहीं डो सकेगा. सुन्नान्ये डमारे ख्यारे आका صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने कुछ अैसे लोग देखे जिन की आंभें और कान कीलों से डुके डुअे थे. दरयाइत करने पर बताया गया के येड वोड लोग हैं ज़े वोड देखते हैं ज़े इनहें नहीं देखना खालिये और वोड सुनते हैं ज़े इनहें नहीं सुनना खालिये.

(المعجم الكبير، الحديث ٧٦٦٦، ج ٨، ص ١٥٦)

शह-शाहे मदीना صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने 8शहद इरमाया :

श्रो गाने वाली के पास बैठे, कान लगा कर ध्यान से उस से सुने तो अल्लाह
 جَلَّ وَعَزَّ बरोजे क्रियामत उस के कानों में सीसा उडलेगा.

(کنز العمال، کتاب اللہو واللعب..... الخ، الحدیث ۶۰۶۶۲، ج ۱۰، ص ۹۶)

फ़िल्म टैपे और श्रो गाने सुने कील उस की आंभ कानों में टुके

अफ़सोस ! फ़िल्मी गानों की धूमों और मूसीकी की धुनों
 रेकोर्डिंग के बिगैर आजकल शायद ही कहीं शादी होती हो. अगर
 कोई समझाये तो भा'ज अवकात जवाब मिलता है, वाह साहिब !
 अल्लाह ने पहली बार फ़ुशी टिपाई और "गाना बाजा" न करें.
 बस जो फ़ुशी के वक्त सब कुछ चलता है ! (مَعَادَا اللَّهِ) मुसल्मानो !
 फ़ुशी के वक्त अल्लाह का शुक अदा किया जाता है के फ़ुशियां तवील
 हों. ना इरमानी नहीं की जाती. अल्लाह न करे के इस ना इरमानी
 की नुडूसत से एकलौती बेटी दुल्हन बनने के आठवें दिन ३० कर
 मयके आ बैठे और मजीद आठ दिन के भा'द तीन तलाक का परया
 आ पड़ोये और सारी फ़ुशियां धूल में मिल जायें. या धूमधाम से
 नायगानों की धमा थौकडी में बियाही हुई दुल्हन 9 माह के भा'द
 पहली ही जयगी में मौत के घाट उतर जाये. या, फ़ुदा न प्वास्ता
 दूल्हा शादी से पहले या यन्द ही रोज के भा'द दुन्या से चल बसे क्यूंके
 मौत कल कर नहीं आती. अेक दईनाक वाकिआ पेशे प्बिदमत है.

હિકાયત : એક શાખ્સ જિસ કા ઘર કબ્રિસ્તાન કે કરીબ થા ઉસ ને અપને બેટે કી શાદી કે સિલ્સિલે મેં રાત નાયરંગ કી મહફિલ કાઈમ કી લોગ નાયકૂદ ઓર ધમા ચૌકડી મેં મશગૂલ થે કે કબ્રિસ્તાન કા સન્નાટા ચીરતી હુઈ દો અ-રબી અશઆર પર મુશ્તમિલ એક ગરજ-દાર આવાઝ ગૂંજ ઉઠી યા'ની, “ઐ નાયરંગ કી ના પાએદાર લઝ્ઝતોં મેં મુન્હમિક હોને વાલો ! મૌત તમામ ખેલકૂદ કો ખત્મ કર દેતી હૈ. બહુત સે ઐસે લોગ હમ ને દેખે જો મુસરતોં ઓર લઝ્ઝતોં મેં ગાફિલ થે મૌત ને ઉન્હેં અપને અહલો ઈયાલ સે જુદા કર દિયા ! “રાવી કહતે હૈં. ખુદા કી કસમ ! ચન્દ દિનોં કે બા'દ દૂલ્હા કા ઈન્તિકાલ હો ગયા.”

આહ ! (ابن ابی دنیا، کتاب الاعتبارواعقاب السوروالاحزان، الرقم ٤١، ج ٦، ص ٣١) મૌત કી આંધી આઈ ઓર ઠહ્ઠા મસ્ખરિયોં, ધમા ચૌકડિયોં, સંગીત કી ધુનોં, ચુટકુલોં ઓર કહ્કહોં, શાદમાનિયોં ઓર મસરતોં, મચલતે અરમાનોં ઓર ખુશી કી તમામ રાહત સામાનિયોં કો ઉડા કર લે ગઈ. દૂલ્હા મિયાં મૌત કે ઘાટ ઉતર ગએ ઓર ખુશિયોં ભરા ઘર દેખતે હી દેખતે માતમ કદા બન ગયા.

તુમ ખુશી કે ફૂલ લોગે કબ તલક તુમ યહાં ઝિન્દા રહોગે કબ તલક

ઈસ હિકાયત કો સુન કર શાદિયોં મેં બેહૂદા ફંક્શન બરપા કરને વાલોં ઓર ઉન મેં શરીક હો કર ગાને બાજે કી ધુનોં પર હંસ હંસ કર ખુશી કે ના'રે બુલન્દ કરને વાલોં કી આંખે ખુલ જાની ચાહિએં.

યાદ રખિયે ! હઝરતે સય્યિદુના અબ્દુલ્લાહ ઇબ્ને અબ્બાસ
 رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے મન્કૂલ છે, “જો હંસ હંસ કર ગુનાહ કરેગા વોહ
 રોતા હુવા જહન્નમ મેં દાખિલ હોગા.”

(مكاشفة القلوب، الباب السادس والثمانون في الضحك والبكاء والباس، ص ۲۷۰)

ગૌર કીજિયે ! કૌન સા “જોડા” આજ સુખી છે? કમો બેશ
 હર જગહ ખાના જંગી છે, કહીં સાસ બહૂ મેં મોરયા બન્દી છે તો કહીં
 નન્દ ઔર ભાવજ મેં ઠીકઠાક ઠની છે. બાત બાત પર “રૂઠ મન” કા
 સિલ્સિલા છે. એક દૂસરે પર જાદૂ ટોને કરવાને કે ઇલામાત હેં, યેહ
 સબ કહીં શાદિયોં મેં ગૌર શર-ઈ હ-રકાત કા નતીજા તો નહીં? ક્યૂંકે
 આજકલ જિસ કે યહાં શાદી કા સિલ્સિલા હોતા હે વહાં ઇતને ગુનાહ
 કિયે જાતે હેં કે ઉન કા શુમાર નહીં હો સકતા.

હાથ જોડ કર મેરી મ-દની ઇલ્તિજા હે કે ઘર કે જુમ્લા
 અફરાદ દો રકઅત નમાઝે તૌબા અદા કરેં ઔર ગિડગિડા કર
 અલ્લાહ جَلَّ وَعَزَّ કી બારગાહ મેં તૌબા કરેં ઔર આયન્દા ગુનાહોં સે
 બચને કા અહ્દ કરેં.

“શાદી મુબારક” કે 9 હુરફ કી નિસ્બત સે

તવ મ-દની ફૂલ

﴿1﴾ બહૂ કો યાહિયે કે અપની માં બહનોં હી કી તરહ અપની સાસ

और नन्द से भी मलज्जत करे ﴿2﴾ बलू की मौजूदगी में मां और बेटी का आपस में कानाफूसी करना बलू के लिये वस्वसों का बाँधस और उस के दिल में अहसासे मलज्जमी पैदा करने वाला है और इस तरह उस के दिल में नफरतों की बुन्याद पडती है ﴿3﴾ बलू को जब तक बेटी से अठ कर सास का प्यार नहीं मिलेगा उस वक्त तक उस का अपनी सास, नन्दों से मानूस होना बहुत मुश्किल है. ﴿4﴾ सास कभी डांट दे तो बलू को याहिये के अपनी मां की डांट समज कर अरदाशत कर ले ﴿5﴾ अगर बलू अद तमीजी कर बैठे तो सास को याहिये के बेटी समज कर मुआफ़ कर दे ﴿6﴾ भूल कर भी येह अल्फ़ाज किसी के मुँह से न निकलें के “बलू ता’वीज करवाती है” वरना इसाद अरपा और सुकून अरबाद हो सकता है ﴿7﴾ अगर भुदा न ज्वास्ता कभी घर से ता’वीज मिल भी जाये तब भी अिगैर शर-ई सुभूत के येह तै कर लेना के बलू ने डाला, ज़र्रज नहीं ﴿8﴾ यकीन जानिये शैतान भी ता’वीज अैसी जगह डाल सकता है के घर के किसी इर्द के हाथ लग जाये और घर में इसाद अडा हो ﴿9﴾ आभी का देवर व जेठ से पर्दा न करना हराम और जहन्नम में ले जाने वाले काम है. सास और सुसर वगैरा आ वुजूदे कुदरत नहीं रोकेँगे तो भुद भी गुनहगार होंगे.

“અલ્લાહ” કે ચાર હુરૂફ કી નિસ્બત સે ચાર મ-દની ઇલ્તિજાએ

«1» તમામ અહલે ખાના કો યેહ મક્તૂબ પઢ કર સુના દિયા જાએ. દા'વતે ઇસ્લામી કે હફતાવાર ઇજતિમાઅ કી મ-દની ઇલ્તિજા હૈ
«2» ઘર કે તમામ અફરાદ નમાઝ રોઝા કી પાબન્દી કરતે રહેં ઔર મ-દની ઇન્આમાત કા હર માહ રિસાલા પુર કર કે જમ્અ કરવાએં. મક-ત-બતુલ મદીના કે જારી કર્દા સુન્નતોં ભરે બયાન કા કમ અઝ કમ એક કેસિટ હો સકે તો રોઝાના ઝરૂર સુનિયે «3» મુનાસિબ ખયાલ ફરમાએં તો યેહ મક્તૂબ સંભાલ કર રખ લીજિયે ઔર ખુદા ન ખ્વાસ્તા ઘર મેં કભી ના ઇત્તિફાકી હો જાએ તો કમ અઝ કમ આખિરી 9 મ-દની ફૂલ પઢ લીજિયે «4» ઘર કા હર મર્દ જિસ કી ઉમ્મર 20 બરસ સે ઝાઈદ હો વોહ હર માહ દા'વતે ઇસ્લામી કે સુન્નતોં કી તરબિચ્યત કે તીન રોઝા મ-દની કાફિલે મેં આશિકાને રસૂલ કે સાથ સુન્નતોં ભરા સફર કિયા કરે. وَالسَّلَامُ مَعَ الْاَكْرَامِ

મ-દની સોહરા (ઇસ્લામી ભાઈયોં કે લિયે)

(અઝ : શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત હઝરતે અલ્લામા મૌલાના

મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અત્તાર કાદિરી دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ)

(એ ફૂલોં સે સજ્હ હુઈ કાર મેં સુવાર હો કર જગ-મગાતે હુજરએ ઉરૂસી કી તરફ ખુશી ખુશી જાને વાલે આરિઝી દૂલ્હા ! યાદ રખ ! અન્કરીબ

તુઝે ફૂલોં સે લદે હુએ જનાઝે મેં સુવાર હો કર કીડે મકોડોં સે ઉભરતી હુઈ
 ઘુપ અંધેરી કબ્ર મેં જા પડના હૈ. અત્તારે ગુનહગાર કે નઝદીક હકીકી શાદી
 (ખુશી) કબ્ર મેં ઈમાન સલામત લે જાના હૈ. આહ કાશ ! બકીઅ)

ફઝ્લે મૌલા સે ગુલામ અહમદ રઝા દૂલ્હા બના ખુશનુમા ખુશ રંગ ફૂલોં કા હૈ સર સેહરા સજા
 ઈન કી “શાદી ખાના આબાદી” હો રબ્બે મુસ્તફા અઝ પએ ગૌસુલ વરા બહરે ઈમામ અહમદ રઝા
 ઈન કી ઝૌજા યા ખુદા કરતી રહે પદા સદા ઈન કી બીવી કો ઈલાહી બખ્શ તૌફીકે હયા
 તૂ સદા રખના સલામત ઈન કા જોડા યા ખુદા ઘર કે ઝગોં સે બચાના તૂ ઈન્હોં રબ્બુલ ઉલા
 ઈન કો ખુશિયાં દો જહાં મેં તૂ અતા કર કિબ્રિયા ઈન પે રન્જો ગમ કી ના છાએ કભી કાલી ઘટા
 આફતે ફેશન સે હર દમ ઈન કો તૂ મૌલા બચા યા ઈલાહી ! ઈન કા ઘર ગહવારએ સુન્નત બના
 ઈન કો ઉમ્મત મેં ઈઝાફે કા સબબ મૌલા બના નેક ઔર પરહેઝ ગાર ઔલાદ કર દે તૂ અતા
 સા-દગી સે ઈસ તરહ ઘર ઈન કા મહકે યા ખુદા ફૂલ જૈસા કે મહકતે હૈં મદીને કે સદા
 યેહ ગુલામ અહમદ રઝા જબ તક યહાં ઝિન્દા રહે ખૂબ ખિદમત સુન્નતોં કી યેહ સદા કરતા રહે
 યા ઈલાહી ! દે સઆદત ઈન કો હજ કી બાર બાર બારબાર ઈન કો દિખા મીઠે મુહમ્મદ ﷺ કા દિયાર
 હો બકીએ પાક મેં દોનોં કો મદફન ભી અતા સબ્જ ગુમ્બાદ કા તુઝે દેતા હૂં મૌલા વાસિતા
 યેહ મિયાં બીવી રહેં જન્નત મેં યકબ્ર ઔ ખુદા યા ઈલાહી ! હૈં યેહી અત્તાર કે દિલ કી દુઆ

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلَيَّ الْحَبِيْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

પેશકશ : મજલિસે અલ મદીનતુલ ઈલ્મિયા (દા'વતે ઈસ્લામી)

મ-દની સેહરા (ઈસ્લામી બહનોં કે લિયે)

(અજ : શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત હઝરતે અલ્લામા મૌલાના

મુહમ્મદ ઈલ્યાસ અત્તાર કાદિરી دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ)

તુઝ કો હો શાદી મુબારક અબ હૈ તેરી રુખ્સતી	રુખ્સતી મેં તેરી પિન્હાં રુખ્સતી હૈ કબ્ર કી ¹
ઘર તેરા હો મુશકબાર ઓર ઝિન્દગી ભી પુર બહાર	રખ હો રાઝી ખુશ હોં તુઝ સે દો જહાં કે તાજદાર
મેરી બેટી કા ખુદાયા ઘર સદા આબાદ રખ	ફાતિમા ઝહરા કા સદકા દો જહાં મેં શાદ રખ
યેહ મિયાં બીવી ઈલાહી મકે શૈતાન સે બચે	યેહ નમાઝેં ભી પઢેં ઓર સુન્નતોં પર ભી ચલે
યેહ મિયાં બીવી ચલે હજ કો ઈલાહી બાર બાર	બાર બાર ઈન કો દિખા મીઠા મદીના કિર્દિગાર
મયકા વ સુસરાલ તેરે દોનોં હી ખુશહાલ હોં	દો જહાં કી ને'મતોં સે ખૂબ માલામાલ હોં
અપને શોહર કી ઈતાઅત સે ન ગફલત કરના તૂ	હર મેં પછતાએગી ઐ પ્યારી બેટી વરના તૂ
મેરી બેટી, યા ઈલાહી ! ના બને ગુસ્સે કી તેઝ	યેહ કરે સુસરાલ મેં હર દમ લડાઈ સે ગુરેઝ
યાદ રખ ! તૂ આજ સે બસ તેરા ઘર સુસરાલ હૈ	નફરતે સુસરાલ સુન લે આફતોં કા જાલ હૈ
માં સમઝ કર સાસ કો, બિદમત જો કરતી હૈ બહૂ	રાજ સારે ઘર પે સુન લે તૂ વોહ કરતી હૈ બહૂ
સાસ ઓર નન્દોં કી બિદમત કર કે હો જા કામ્યાબ	ઈન કી ગીબત કર કે મત કર બૈઠના પાના ખરાબ
સાસ ઓર નન્દેં અગર સખ્તી કરેં તો સબ્ર કર	સબ્ર કર બસ સબ્ર કર ચલતા રહેગા તેરા ઘર

1 : યાદ રખ ! જિસ તરહ આજ તુઝે દુલ્હન બના કર ફૂલોં સે લાદ કર હુજરએ અઝ્સી મેં લે જાયા જા રહા હૈ ઈસી તરહ જલ્દ હી તેરે જનાઝે કો ફૂલોં સે લાદ કર અંધેરી કબ્ર કી તરફ લે જાયા જાએગા.

તૂ ખુશી કે ફૂલ લેગી કબ તલક

તૂ યહાં ઝિન્દા રહેગી કબ તલક !

સાસ ઓર નન્દોં કા શિકવા અપને મયકે મેં ન કર ઈસ તરહ બરબાદ હો સકતા હૈ બેટી તેરા ઘર¹
 મયકે કે મત કર ફગાઈલ તૂ બયાં સુસરાલ મેં² અબ તૂ ઈસ ઘર કો સમઝ અપના હી ઘર હર હાલ મેં
 સાસ ચીખી તૂ ભી બિકરી ઓર લડાઈ ઠન ગઈ હૈ કહાં ભૂલ એક કી, દો હાથ સે તાલી બજ
 યાદ રખ તૂ ને અગર ખોલી ઝબાં સુસરાલ મેં ફંસ કે રહ જાએગી બેટી ! કઝિયોં કે જન્મલ મેં
 મેરી પ્યારી બેટી સુન ફૈઝાને સુન્નત પઢ કે તૂ ઈલ્તિજા હૈ રોઝ દેના દર્સ અપને ઘર પે તૂ
 ગર નસીહત પર અમલ અત્તાર કી હોગા તેરા આંદાઝ અપને ઘર મેં તૂ સુખી હોગી સદા

ઘર અમ્મ કા ગહવારા કૈસે બને ?

અમીરે અહલે સુન્નત **کتاب الترتیب للامام ابو حنیفہ** ને 6 જુલ કા'દતિલ

હરામ 1428 સિ.હિ., 17 દિસમ્બર 2007 સિ.ઈ. બરોઝ પીર શરીફ
 એક ઈસ્લામી ભાઈ ઓર ઉન કે બચ્ચોં કી અમ્મી કો ઘરેલૂ નાયાકી કે
 ઈલાજ કે લિયે નસીહત કે મ-દની ફૂલ ઈનાયત ફરમાએ (જિન મેં

1 : અગર ખુદા ન ખ્વાસ્તા સુસરાલ મેં કોઈ ચપ-કલિશ હો જાએ તો મયકે મેં ઉસ કી
 ભડાસ નિકાલને મેં યેહ ખતરા હૈ કે માં, બહનેં હમદદાઈ કરેં ઓર ઉન કી શહ મિલને
 પર જઝબાત મઝીદ મુશ્તઈલ હોં ઓર યૂં લડાઈ ઠન્ડી હોને કે બદલે મઝીદ બઢ જાએ
 ઓર નતીજતન ઘર બરબાદ હો જાએ આજકલ ઈસ તરહ સે ઘર તબાહ હો રહે હૈં ઈસી
 લિયે સગે મદીના ને યેહ નસીહત કરને કી જસારત કી હૈ. (કોઈ સુને યા ન સુને રોઝાના
 ફૈઝાને સુન્નત કા દર્સ જારી રખને કી મ-દની ઈલ્તિજા હૈ.) 2 : અપને માં, બાપ, યા
 ભાઈ બહનોં કી સખાવતોં કે ઉમૂમન ચર્યે બહૂ અપને સુસરાલ મેં કરતી હૈ જિસ સે
 સુસરાલ વાલોં કો શૈતાન વસ્વસા ડાલતા હૈ કે યેહ તુમ લોગોં કો સુનાતી ઓર જતાતી
 હૈ કે તુમ લોગ તો કન્જૂસ ઓર બે મુરુવ્વત હો. ઓર યૂં નફરતોં કી બુન્યાદેં મઝબૂત
 હોતી હૈં. બહૂ કા મુંહ ફુલાઓ રહના ભી ફસાદ કી સૂરત બનતા હૈ. ઈસ તરહ સુસરાલ
 કે સામને અપને બચ્ચોં કો કોસને સે ભી ગુરેઝ કરે, કે બા'ઝ અવકાત સુસરાલ વાલે
 સમઝતે હૈં યેહ હમેં સુના રહી હૈ, ફિર જંગ છિડ જાતી હૈ.

जइरतन कहीं कहीं तरमीम की गई है) ँन म-दनी इलों पर अमल कर के ٱٱٱٱٱ घर को हकीकी मा'नों में अमन का गइवारा बनाया जा सकता है.

**“मिआज शनासी की आदत डालो” के उव्नीस
हुइइ की निस्मत से शादीशुदा घरलामी
लाधयों के लिये 19 म-दनी इल**

मदीना 1 : ँस में कोई शक नहीं के शोहर अपनी औजा पर हाकिम है तालम ँन्साइ से काम लेना जइरी है के हाकिम से मुराद सियाह सईद का मालिक होना नहीं है.

मदीना 2 : औरत टेढी पस्ली की पैदावार है, उस की नईसय्यात को परभ कर उस के साथ भरताव कीजिये. अगर अपनी सोय के मे'यार पर उस को तोलेंगे तो घर चलना बहुत दुश्वार है.

मदीना 3 : औरत उमूमन नाकिसुल अकल होती है, 100 ईसद आप के मे'यार पर पूरी उतरे येह तवक्कीअ उस से बेकार है, लिहाजा उस की कोताहियों को नजर अन्दाज कर के उस पर मजीद ओहसानात कीजिये.

मदीना 4 : लाभ ग-लतियां करे, मुंह यढाओ, बुउबुडाओ, अगर आप घर आबाद देभना चाहते हैं तो उस के साथ उस वक्त तक नरमी से पेश आने का जेहन बनाते रहिये जब तक शरीअत सफ्ती की ँजाजत न दे.

મદીના 5 : અગર ઔરત ટેઢી ચલતી રહી ઔર આપ સબ્ર કરતે રહે તો **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** અજરો સવાબ કા આખિરત મેં અમ્બાર દેખેંગે. નૂર કે પૈકર, તમામ નબિયોં કે સરવર, દો જહાં કે તાજવર, સુલ્તાને બહરો બર **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** કા ફરમાને રૂહ પરવર હૈ : “કામિલ ઈમાન વાલોં મેં સે વોહ ભી હૈ જો ઉમ્દા અખ્લાક વાલા ઔર અપની જૌજા કે સાથ સબ સે ઝિયાદા નર્મ તબીઅત વાલા હૈ.”

(جامع الترمذی، ج ۲، ص ۳۸۷، حدیث ۱۱۶۵)

મદીના 6 : અગર બીવી આપ કે મન પસન્દ ખાને નહીં પકા પાતી તો સબ્ર કીજિયે. મહૂઝ નફસ કી મા'મૂલી લઝ્ઝત કી ખાતિર બિલા ઈજ્ઝતે શર-ઈ ઈસ કો ડાંટ ડપટ કરના, મારયાડ પર ઉતરના બરબાદિયે આખિરત કા બાઈસ બન સકતા હૈ.

મદીના 7 : જિસ તરહ આમ મુસલ્માનોં કી દિલ આઝારી હરામ હૈ ઉસી તરહ બિલા મસ્લહતે શર-ઈ બીવી કી દિલ આઝારી મેં ભી જહન્નમ કી હકદારી હૈ.

મદીના 8 : અગર કભી ગુસ્સા આ જાએ ઔર જૌજા પર નાહક ઝબાન ચલ જાએ યા બિલા મસ્લહતે શર-ઈ હાથ ઉઠ જાએ તો તૌબા ભી વાજિબ ઔર તલાફી ભી લાઝિમ. બિગૈર શરમાએ ઔર બિગૈર અપની કર્સે શાન સમજે ઉસ સે નિહાયત લજ્જત વ નદામત કે સાથ ઈસ તરહ મા'ઝિરત કીજિયે કે ઉસ કા દિલ

साइं डो ज़अे और वोड वाकिअतन मुआइं कर दे. डर जगड रस्मी SORRY डोल देना काम नहीं देता न ईस तरड डकुड अड से यकीनी डलासी डोती है. जैसा जुर्म वैसी मुआइं तलाई.

मदीना 9 : कबी आप की पुकार पर जवाड न डिले तो डे तलाशा डरस पडना सिइला पन है, डुस्ने जन से काम लीजिये के डेयारी ने सुना न डोगा या कोई और मजबूरी डानेअ डुई डोगी.

मदीना 10 : कबी कपडे की ईस्त्री डराडर न डुई, डाने डें नडक डिर्य कडो डेश डुवा, ताजा डाना पका कर न दिया, डूसरे दिन का गर्ड कर के या ठन्डा डी रड दिया, डरतन डराडर न डुल पाअे तो ज़रिडाना अन्दाज से डुकड यलाने और डांट पिडाने के डजअे नरडी से तइडीड (या'नी सडजाना), ईजदियादे डुड (या'नी डडडत डें ईजइे) का डार्स डोगी. नइसो शैतान की यालों को सडजने की कोशिश कीजिये, नइरते डत डडाईये.

मदीना 11 : डडान से डताने डें गुरसा आ ज़ता डो और डात डिगड ज़ती डो तो अगर इरीकैन अैसे डौकअ पर अेक डूसरे को तडरीरी तौर पर सडजने का डा'डूल डनाअे तो **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** जगडे की नौडत नहीं आअेगी.

मदीना 12 : डोटल या डाजार की गिजा की डानिन्द लजीज अगिज्या

(या'नी गिजाअें) बनाने का जौजा से बिल जअ्र मुता-लबा करना नफ्स की पैरवी और उस के न बनाने पर तन्जो मिजाह, ता'नो तश्नीअ और जअर दस्ती की हिल आजारी करना शैतान की फुशी का सामान है.

मदीना 13 : अपनी वालिदा वगैरा की शिकायत पर बिगैर शर-ई सुभूत के जौजा को जाडना या मारना वगैरा जुल्म है और जालिम जहन्नम का हकदार. फा-तमुल मुर-सलीन, रहूमतुखिल आ-लमीन **جامع الترمذی، ج ۳، ص ۴۰۶، حدیث ۲۰۱۶ ملخصاً** का फरमाने आलीशान है : “जुल्म जहन्नम में ले जाने वाला है.”

मदीना 14 : अपना काम अपने हाथ से करना बाईसे सआदत और अजीम सुन्नत है. उम्मुल मुअमिनीन हजरते सय्यि-दतुना आईशा सिदीका **رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا** के सुल्ताने मककअे मुकर्रमा, सरदारे मदीनअे मुनव्वरह **صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** अपने कपडे फुद सी लेते और अपने ना'लैने मुबा-रकैन गांठते और वोह सारे काम करते जौ मई अपने घरों में करते हैं.” **كنز العمال، ج ۷، ص ۶۰، حدیث ۱۸۵۱۴**

मदीना 15 : छोटी छोटी बातों पर बीवी को हुकूम देना म-सलन येह उठा दो, वोह रफ दो, हुलां थीज हूंड कर ला दो वगैरा से बयना और अपना काम अपने हाथ से कर लिया करना घर को अन्न का गड्वारा बनाने में मदद देता है.

मदीना 16 : अपने छोटे छोटे कामों के लिये बीवी को नींद से जगा

देना, कामकाज और जाडू पोये के दौरान, आटा गूंधते हुअे, नीज दर्टे सर, नजला या दीगर बीमारियों के होते हुअे उन को काम के ओईर दिये जना घर के माडोल को पराब कर सकता है. जिस तरह आप को नींद प्यारी है, सुस्ती होती है, मूड ओफ़ होता है ईसी तरह के अवारिज औरत को भी दरपेश होते हैं, बढे मर्द के मुकाबले में औरत को नींद जियादा आती है नीज उस को भी गुस्सा आ सकता है लिहाजा मिजाज शनासी की आदत उलिये.

मदीना 17 : इरीकैन में से अगर अेक को गुस्सा आ जाअे तो दूसरे का बामोश रहना बहुत जरूरी है के गुस्से का गुस्से से ईजावा बसा अवकात पतरनाक साबित होता है.

मदीना 18 : बावर्यो जाने में मस्झिह्यत के दौरान बीवी को ईस तरह तन्कीद का निशाना जानाना के आवू तराशना नहीं आता, टमाटर काटने का ढंग नहीं, अदरक क्या ईस तरह काटते हैं? वगैरा वगैरा बहुत ही तकलीफ़ देह और बाईसे तन्फीर होता है. अकल मन्द वोही है जो बीवी की जार्ज तौर पर छौसला अइजाई करता रहे और अपना काम निकालता रहे.

मदीना 19 : मियां बीवी का बर्यो के सामे लडना जगडना उन के अह्लाक के लिये भी तबाह कुन है.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

पेशकश : मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया (दा'वते इस्लामी)

“शोहर हाकिम होता है” के चौदह हुक्म की निस्मत से शादी शुदा इस्लामी बहनों के लिये 14 म-दनी हूल

मदीना 1 : मियां हाकिम होता और बीवी महुक्ूम होती है ँस के उलट होने का ढयाल त्मी हिल में न लांये.

मदीना 2 : जब मियां हाकिम है तो उस की ँताअत को लाजिम समजिये. सय्यिदुल मुर-सलीन, आ-तमुन्नबिय्यीन, जनाबे रहुमतुद्लिल आ-लमीन صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरमाया :
“औरत जब पांच नमाजें पढ़ें, र-मजान के रोजे रभे, अपनी ँज्जत की डिफ़ाजत करे और अपने आवन्द की ँताअत करे तो जिस दरवाजे से याहे जन्नत में दाखिल हो. (المعجم الاوسط، ج 3، ص 283، حديث 6098).

मदीना 3 : उन का शरीअत के मुताबिक मिलने वाला हर हुकम ढ्वाह नइस पर कितना ही गिरां हो ढुशदिली के साथ सर आंणों पर लीजिये.

मदीना 4 : उन की पसन्द के ढाने उन की मरजी के मुताबिक उम्दा तरीके पर पका कर, बश्शाशत के साथ पेश कर के उन के हिल में ढुशी दाखिल कर के बे अन्दाजा सवाब की हकदार बनिये. हजरते सय्यिदुना ँब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا से रिवायत है के नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर, दो जहां के ताजवर, सुल्ताने बहरो भर صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इरमाया के “अद्लाह उज़्ज़ु व जल्ल इराँज

મદીના 9 : મિયાં યા સુસરાલ કી શિકાયત મયકે મેં કરના દુન્યા વ આખિરત કે લિયે સપ્ત નુક્સાન દેહ સાબિત હો સકતા હૈ કે ફી ઝમાના મુશા-હદા યેહી હૈ કે ઈસ તરહ ગીબતોં, તોહ્મતોં, યુગ્લિયોં, ઐબ દરિયોં ઓર દિલ આઝારિયોં વગૈરા તરહ તરહ કે ગુનાહોં કા બહુત બડા દરવાઝા ખુલ જાતા હૈ ફિર ઈસ કી નુહૂસત સે બારહા દુન્યા મેં યેહ આફત આતી હૈ કે ઘર ટૂટ જાતા હૈ.

મદીના 10 : હાં અગર વાકેઈ શોહર ઝુલ્મ કરતા હૈ યા સુસરાલ વાલે સતાતે હેં તો સિફ્ ઐસે શપ્સ કો અચ્છી નિય્યત કે સાથ ફરિયાદ કી જાએ જો ઝુલ્મ સે બચા સકતા, સુલ્હ કરવા સકતા હો યા ઈન્સાફ દિલવા સકતા હો, બાકી સિફ્ ભડાસ નિકાલના, દિલ હલકા કરને કે લિયે “ઘર કી બાતેં” મયકે યા સહેલિયોં કે પાસ કરના ગીબતોં ઓર તોહ્મતોં વગૈરા કે ગુનાહોં મેં ડાલ કર સુનને સુનાને વાલોં કો જહન્નમ કા હકદાર બના સકતા હૈ.

મદીના 11 : બિલફઝ્ શોહર યા સાસ વગૈરા કી કિસી હ-ર-કત સે કભી દિલ કો ઠેસ પહોંચે તો ખુદ કો કાબૂ મેં રખિયે, યેહ આપ કે ઈમ્તિહાન કા મૌકઅ હૈ કે યા તો ઝબાન વ દિલ કો કાબૂ મેં રખ કર સબ્ર કર કે જન્નત કી લા ઝવાલ ને’મતોં કો પાને કી સઅ્ય કીજિયે યા ઝબાન કી આફતોં મેં પડ કર શરીઅત કા દાઅેરા તોડ કર અપને આપ કો જહન્નમ કી હકદાર ઠહરાઈયે.

मदीना 12 : अगर्थे आप कितनी ही मस्रूफ़ हों, प्वाह नींद के मजे लूट रही हों, जूँही शोहर आवाज़ दे, सवाबे अजीम पाने की निव्यत से फ़ौरन लब्बैक (या'नी में हाज़िर हूँ) कलती हुँ उठ बैठिये और उन की बिदमत में मशगूल हो कर जन्नतुल फ़िरदौस के भजाने समेटना शुरुअ कर दीजिये.

मदीना 13 : शोहर की दिलजूई की भातिर उन के वालिदैन वगैरा की भुशदिली के साथ बिदमत भजा लाईये **إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ** दोनों जहाँ में भेडा पार डोगा.

कर भला हो भला

मदीना 14 : शोहर की हरगिज़ ना शुकी मत कीजिये के उस के आप पर बे शुमार अेहसानात हैं. सरकारे नामदार, मदीने के ताजदार, बि ईज़ने परवर्द गार हो आलम के मालिको मुप्तार, शहन्शाहे अबरार **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** अेक बार ईद के रोज़ ईदगाल तशरीफ़ ले जाते हुअे भवातीन की तरफ़ गुज़रे तो फ़रमाया : “अै औरतो ! स-दका किया करो क्यूंके मैं ने अकसर तुम को जन्नन्भी देपा है” भवातीन ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह **صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ईस की वजह ? फ़रमाया : “ईस लिये के तुम ला'नत बहुत करती हो और अपने शोहर की ना शुकी करती हो. (صحيح البخارى، ج 1، ص 123، حديث 304)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

पेशकश : भजलिसे अल मदीनतुल ठल्मिथ्या (दा'वते ईस्लामी)

મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હો જાઇયે

તબ્લીગે કુરઆનો સુન્નત કી આલમગીર ગૈર સિયાસી તહરીક દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હોને કી બ-ર-કત સે અલ્લાહ ઓર ઉસ કે રસૂલ ﷺ કી મેહરબાની સે બે વકઅત પથર ભી અનમોલ હીરા બન જાતા, ખૂબ જગ-મગાતા ઓર ઐસી શાન સે પૈકે અજલ કો લબ્બૈક કહતા હૈ કે દેખને સુનને વાલા ઉસ પર રશક કરતા ઓર ઐસી હી મૌત કી આરઝૂ કરને લગતા હૈ. આપ ભી દા'વતે ઈસ્લામી કે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હો જાઇયે. અપને શહર મેં હોને વાલે દા'વતે ઈસ્લામી કે હફતાવાર સુન્નતોં ભરે ઈજતિમાઅ મેં શિર્કત ઓર રાહે ખુદા ﷻ મેં સફર કરને વાલે આશિકાને રસૂલ કે મ-દની કાફિલોં મેં સફર કીજિયે ઓર શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત ﷺ કે ડામ્ત બરકાતુહુમ્માલિયા કે અતા કદા મ-દની ઈન્આમાત પર અમલ કીજિયે, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ﷻ દોનોં જહાં કી ઢેરોં ભલાઈયાં નસીબ હોંગી.

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

દુઆ : યા રબ્બે મુસ્તફા! ﷻ ! હમેં અમીરે અહલે સુન્નત ડુઆ કી ડામ્ત બરકાતુહુમ્માલિયા કી પૈરવી મેં ખુશી વ ગમ મેં અહકામે શરીઅત પર અમલ કરને કી તૌફીક અતા ફરમા. યા અલ્લાહ! ﷻ હમેં મ-દની ઈન્આમાત કા આમિલ બના. યા અલ્લાહ! ﷻ હમારી બે

હિસાબ મગ્ફિરત ફરમા. યા અલ્લાહ ! عَزَّ وَجَلَّ હમેં દા'વતે ઇસ્લામી કે મ-દની માહોલ મેં ઇસ્તિકામત અતા ફરમા. યા અલ્લાહ ! عَزَّ وَجَلَّ હમેં સચ્ચા આશિકે રસૂલ બના. યા અલ્લાહ ! عَزَّ وَجَلَّ ઉમ્મતે મહબૂબ (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) કી બખ્શિશ ફરમા.

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

ગોર સે પઠ કર યેહ ફોર્મ પુર કર કે તફ્સીલ લિખ દીજિયે

જો ઇસ્લામી ભાઈ ફેઝાને સુન્નત યા અમીરે અહલે સુન્નત કુતુબો રસાઈલ સુન યા પઠ કર, બયાન કી કેસિટ સુન કર યા હફતાવાર, સુબાઈ વ બૈનલ અક્વામી ઇજતિમાઆત મેં શિર્કત યા મ-દની કાફિલોં મેં સફર યા દા'વતે ઇસ્લામી કે કિસી ભી મ-દની કામ મેં શુમૂલિયત કી બ-ર-કત સે મ-દની માહોલ સે વાબસ્તા હુએ, ઝિન્દગી મેં મ-દની ઇન્કિલાબ બરપા હુવા, નમાઝી બન ગએ, દાઢી, ઇમામા વગૈરા સજ ગયા, આપ કો યા કિસી અઝીઝ કો હૈરત અંગેઝ તૌર પર સિહ્હત મિલી, પરેશાની દૂર હુઈ, યા મરતે વક્ત કલિમએ તય્યિબા નસીબ હુવા યા અચ્છી હાલત મેં રૂહ કબ્જ હુઈ, મહૂમ કો અચ્છી હાલત મેં ખ્વાબ મેં દેખા, બિશારત વગૈરા હુઈ યા તા'વીઝાતે અત્તારિય્યા કે ઝરીએ આફાત વ બલિય્યાત સે નજાત મિલી હો તો હાથોં હાથ ઇસ ફોર્મ કો પુર કર દીજિયે ઔર એક સફહે પર વાકિઆ કી તફ્સીલ લિખ કર ઇસ પતે પર ભિજવા કર એહસાન

इरमाईये “म-दनी मर्कज हैजाने मदीना” त्री कोनिया बगीये के पास, मिरजापूर, अडमदआबाद गुजरात (ईन्डिया)

नाम मअ वल्लिख्यत

उम्र किन से मुरीद या तालिब हैं

पत मिलने का पता

फोन नम्बर (अमअ कोड) :

ई मईल अेड्रेस

ईन्डिलाबी केसिट या रिसाले का नाम :

सुन्नते, पढने या वाकिआ इनुमा होने की तारीख मदीना/साल :
..... कितने दिन के म-दनी काइले

में सइर किया :

मौजूदा तन्जीमी जिम्मादारी

मुन्दरिजअे बाला अराअेअ

से जो अ-र-कतें डसिल डुई, डुलां डुलां बुराई छूटी वोड तइसीलन

और पडले के अमल की कैइय्यत (अगर उअ्रत के लिये लिखना चाहें)

म-सलन इेशन परस्ती, उकैती वगैरा और अमीरे अडले सुन्नत

مَدِينَةُ الْمَدِينَةِ की आते मुआ-रका से आहिर होने वाली अ-रकातो

करामात के “ईमान अइरोज वाकिआत” मकाम व तारीख के साथ

अेक सइडे पर तइसीलन तडरीर इरमा दीजिये.

મ-દની મશવરા

શૈખે તરીકત, અમીરે અહલે સુન્નત હઝરતે અલ્લામા મૌલાના અબૂ બિલાલ મુહમ્મદ ઇલ્યાસ અત્તાર કાદિરી ર-ઝવી رَضِيَ اللهُ عَنْهُ દૌરે હાઝિર કી વોહ યગાનએ રૂઝગાર હસ્તી હૈં કે જિન સે શ-રફે બૈઅત કી બ-ર-કત સે લાખોં મુસલ્માન ગુનાહોં ભરી ઝિન્દગી સે તાઈબ હો કર અલ્લાહુ રહમાન عَزَّ وَجَلَّ કે અહકામ ઓર ઉસ કે પ્યારે હબીબે લબીબ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ કી સુન્નતોં કે મુતાબિક પુર સુકૂન ઝિન્દગી બસર કર રહે હૈં. ખૈર ખ્વાહિયે મુસ્લિમ કે મુકદ્દસ જઝબે કે તહ્ત હમારા મ-દની મશવરા હૈં કે અગર આપ અભી તક કિસી જામેએ શરાઈત પીર સાહિબ સે બૈઅત નહીં હુએ તો શૈખે તરીકત અમીરે અહલે સુન્નત رَضِيَ اللهُ عَنْهُ કે ફુયૂઝો બ-ર-કાત સે મુસ્તફીદ હોને કે લિયે ઇન સે બૈઅત હો જાઈયે. اِنَّا لِلّٰهِ عَاذِلُوْنَ દુન્યા વ આખિરત મેં કામ્યાબી વ સુખ-રૂઈ નસીબ હોગી.

મુરીદ બનને કા તરીકા

અગર આપ મુરીદ બનના ચાહતે હૈં, તો અપના ઓર જિન કો મુરીદ યા તાલિબ બનવાના ચાહતે હૈં ઉન કા નામ નીચે તરતીબ વાર મઅ વલ્દિય્ત વ ઉમ્મ લિખ કર મ-દની મર્કઝ, ફૈઝાને મદીના, ત્રી કોનિયા બગીચે કે પાસ અહમદઆબાદ, ગુજરાત (ઈન્ડિયા) કે પતે પર રવાના ફરમા દેં, તો اِنَّا لِلّٰهِ عَاذِلُوْنَ ઉન્હેં ભી સિલ્સિલએ

કાદિરિય્યા ર-ઝવિય્યા અત્તારિય્યા મેં દાખિલ કર લિયા જાએગા.
(પતા અંગ્રેઝી કે કેપીટલ હુરૂફ મેં લિખેં)

Email : Attar @ Dawateislami.net

﴿1﴾ નામ વ પતા બોલ પેન સે ઓર બિલ્કુલ સાફ લિખેં, ગૈર મશહૂર નામ યા અલ્ફાઝ પર લાઝિમન એ'રાબ લગાએ. અગર તમામ નામોં કે લિયે એક હી પતા કાફી હો તો દૂસરા પતા લિખને કી હાજત નહીં.

﴿2﴾ એડ્રેસ મેં મહરમ યા સર પરસ્ત કા નામ ઝરૂર લિખેં. ﴿3﴾ અલગ અલગ મક્તૂબાત મંગવાને કે લિયે જવાબી લિફાફે સાથ ઝરૂર ઈરસાલ ફરમાએ.

નમ્બર શુમાર	નામ	મદદ/ ઓરત	બિન/ બિન્તે	બાપ કા નામ	ઉમ્મ	મુકમ્મલ એડ્રેસ

મ-દની મશવરા : ઈસ ફોર્મ કો મહફૂઝ કર લેં ઓર ઈસ કી મઝીદ કોપિયાં કરવા લેં.

કિયામત કે રોઝ હસરત

ફરમાને મુસ્તફા ﷺ : સબ સે ઝિયાદા હસરત કિયામત કે દિન ઉસ કો હોગી જિસે દુન્યા મેં ઇલ્મ હાસિલ કરને કા મૌકઅ મિલા મગર ઉસ ને હાસિલ ન કિયા ઓર ઉસ શખ્સ કો હોગી જિસ ને ઇલ્મ હાસિલ કિયા ઓર દૂસરોં ને તો ઉસ સે સુન કર નફ્અ ઉઠાયા લેકિન ઇસ ને ન ઉઠાયા (યા'ની ઉસ ઇલ્મ પર અમલ ન કિયા).

(તારિખ દમશ્ક લાબન દ્સાકિરજ ૧૦૧ વ ૧૩૮ ડારાલફકરિયોત)

કિતાબ કે ખરીદાર મુ-તવજ્જેહ હોં

કિતાબ કી તબાઅત મેં નુમાયાં ખરાબી હો યા સફહાત કમ હોં યા બાઈન્ડિંગ મેં આગે પીછે હો ગએ હોં તો મક-ત-બતુલ મદીના સે રુજૂઅ ફરમાઈયે.



भरडीआ की छाव से भरडीआ तक्रिया

बिन्ते अत्तार का जडेल



الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالشُّكْرُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ إِنَّا نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

सुन्नत की ज़रूरतें

तब्दीगी कुरआनो सुन्नत की आलमगीर और सियासी तहरीक दा'वते ईस्वामी के मसके मसके म-दनी माहोल में अ कसरत सुन्नतें सीपी और सिपाई जाती हैं, हर जुमा'रात ईशा की नमाज के बाद आप के शहर में होने वाले दा'वते ईस्वामी के हकतावार सुन्नतों पर ईजतिमाअ में रिआये ईवाही के विये अक्की अक्की नियतों के साथ सारी रात गुजारने की म-दनी ईज्तिहा है. आशिकाने रसूल के म-दनी काकिवों में अ नियते सवाअ सुन्नतों की तरबियत के विये सकर और रोजाना किंके मदीना के जरीये म-दनी ईन्आमात का रिसावा पुर कर के हर म-दनी माह के ईज्तिहाई हस दिन के अन्दर अन्दर अपने यहाँ के जिम्मेदार को जम्अ करवाने का मा'भूल बना वीजिये, **إِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ بِإِيمَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا** से पाबन्दे सुन्नत बनने, गुनाहों से नकरत करने और ईमान की खिफाजत के विये कुहने का जेहन बनेगा.

हर ईस्वामी भाई अपना येह जेहन बनाये के "मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की ईस्वाह की कोशिश करनी है. **إِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ بِإِيمَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا**" अपनी ईस्वाह की कोशिश के विये "म-दनी ईन्आमात" पर अमल और सारी दुनिया के लोगों की ईस्वाह की कोशिश के विये "म-दनी काकिवों" में सकर करना है. **إِنَّ اللَّهَ يَكْفُرُ بِإِيمَانِ الَّذِينَ كَفَرُوا**

मड-त-अतुल मदीना की शाखें

सुरत : वदियाभाई मस्जिद, ज्वाज्र दाना दरगाह के पास, 9898615071

जमनगर : पांच हाटडी, 9327977293

भोडासा : सुका अजर, 9725824820

गांधीधाम : सपना नगर, मदीना मस्जिद के पास, 8141474279

धोलका : ताजदारे मदीना मस्जिद के सामने, टावर बाजार, 9374915797